



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्टूबर 3, 2008 (आश्विन 5, 1930)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2008 (ASVINA 5, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

चेनई-600034, दिनांक 30 मई 2008

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 3 एस सी ए (4)/1/2006-2007-- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 उप धारा (1) कलांज (ब) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आग्रह पर आगे दी गई तिथि से हट दिया है:--

क्रम सं.	सदस्य सं.	सदस्य का नाम	दिनांक
1.	002076	श्री सुब्रामनयम एन एस	31/03/2006
2.	002347	श्री वेनुगोपाल एस	31/03/2006
3.	004209	श्री वेंकटरमन के	31/03/2006
4.	005352	श्री सुन्दरशन पी एस	02/05/2006
5.	013335	श्री बालासुब्रामनयन एस	31/03/2006
6.	020491	श्री शिवासुब्रामनियन एस	27/03/2006
7.	024857	कुमारी सीताबाई बी	02/05/2006

(डॉ.) अशोक हल्दिन्या  
सचिव

3 एस सी ए (4)/2/2006-2007 चार्टर्ड प्रांत लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एड्मि) द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्रांत लेखाकार अधिनियम 1949 के धारा 20 का पारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्रांत लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता संविदा में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनकी मृत्यु के कारण आगे की हुई तिथि से हटा दिया है :

क्रम सं०	सदस्य सं०	सदस्य का नाम	दिनांक	क्रम सं०	सदस्य सं०	सदस्य का नाम	दिनांक
1.	000408	श्री धर्माशंकर अग्रवाल आर	03/08/2006	36.	012906	श्री गलिखारजुना राव चमर्की	16/12/2005
2.	000454	श्री नटराजन पी	25/08/2006	37.	014465	श्री वेणकटराम स्व ए	06/11/2006
3.	000700	श्री शशुपति टी आर	11/07/2005	38.	015231	श्री भालाकृष्णन एस	20/11/2006
4.	000978	श्री नरयणास्वामी ए	20/12/2006	39.	016815	श्री गायल्ल गोरज्ज जॉसफ	06/11/2005
5.	001009	श्री वेङ्कटराम एस	21/01/2007	40.	018126	श्री जयजीवन पी पी	31/01/2005
6.	001254	श्री कृष्णन पी एस	25/11/2006	41.	018297	श्री रामायक पी एस	15/04/2006
7.	002263	श्री वेण्कट रामनाथन पी	25/11/2005	42.	018298	श्री नन्दा कुमार सी के	16/04/2006
8.	003011	श्री टीगोर रवीन्द्रनाथ	13/08/2006	43.	018566	श्री रामचन्द्र राव कोली	11/08/2006
9.	003074	श्री प्रधासाथी पुन्नुल	05/03/2006	44.	019867	श्री सिद्धार्थ एम एस ए	18/01/2006
10.	003175	श्री गरसिहया राव	15/08/2006	45.	020418	श्री नरसिंह गिरेन पी	29/11/2006
11.	003508	श्री गंगा धर्मे बाबली	11/06/2006	46.	020600	श्री चन्द्रशेखर के सी	07/09/2003
12.	004307	श्री कुटीला सेमूल	12/05/2006	47.	020651	श्री गोलियासन एस	29/01/2005
13.	004334	श्री रामराजन आर	22/01/2006	48.	021844	श्री कृष्ण राव सी एच पी	09/03/2006
14.	004605	श्री दमबल भूतिगोपा वरमनेष	23/06/2005	49.	022077	श्री पानन्दकृष्णन ए टी	02/12/2006
15.	004957	श्री शिखरीगोपास्वामी आर	22/09/2006	50.	023248	श्री केतवा शानबोयू के	15/05/2006
16.	005040	श्री आशोक कुमल	03/01/2007	51.	023910	श्री जयजीवन सीनाल्ल	05/03/2006
17.	005651	श्री प्रसेवर गोपेला	29/03/2006	52.	024655	श्री मधू कृष्णा रेड्डी	08/08/2006
18.	006262	श्री अरुणमुत्तम एस	17/10/2006	53.	025411	श्री जयसोन पी	14/12/2004
19.	006838	श्री सेतुलन एस	02/11/2006	54.	025880	श्री वेङ्कटरामन ए आर	16/12/2005
20.	006886	श्री शंकरनारायणन पी	18/03/2006	55.	026469	श्री रामरा पी	29/11/2006
21.	006964	श्री रामनाथ एस	02/12/2006	56.	026850	श्री जयजीवन सी राव	18/11/2005
22.	007306	श्री नरसिंहमय एस एस	24/07/2005	57.	028345	श्री जयजयन्त प्रसाद एस	27/07/2006
23.	007669	श्री पीताम्बरन पी ई	18/05/2006	58.	202088	श्री जेष्ठ एस	05/04/2006
24.	007977	श्री गोपादकृष्णन रामनाथन	05/01/2007	59.	202760	श्री राजी एस	24/02/2007
25.	007994	श्री प्रधासाथी सी आर	21/02/2006	60.	204514	श्री रामू के	29/04/2006
26.	008149	श्री गंगाधरा भूर्ति के सी	18/05/2006	61.	206939	श्री जयजीवन	11/03/2006
27.	008161	श्री गणेशन पी	16/10/2005	62.	209465	श्री रामचन्द्रनर कृष्ण राम	02/08/2005
28.	008534	श्री विजय कुमार पी	03/11/2006	63.	216293	श्री जयजयन आर	19/02/2006
29.	008634	श्री रामानुजा अईनगर विरुल्लेगदा	13/08/2006				
30.	009785	श्री सुरेश्वर शिनोर आर	24/12/2006				
31.	010487	श्री शिनोर गणेश के	21/04/2005				
32.	010578	श्री रामाशुति एस	30/09/2006				
33.	010696	श्री नेनर एस आर एस एस	18/01/2006				
34.	011625	श्री रामारामाजी जयसूर देवकर	26/01/2007				
35.	012795	श्री सेतारामन एस	01/04/2006				

डा० अशोक हल्दिया

सचिव

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 सितम्बर 2008

सं 1 सी.ए./ (7)/122/2008--अधिसूचना संख्या नं. 1--सी.ए./ (7)/(115)/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 जिसके द्वारा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद की पिंपरी चिंचवाड़ शाखा का गठन अधिसूचित किया गया था, के आंशिक उपांतरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि पिंपरी और चिंचवाड़ के अतिरिक्त निम्नलिखित शहर/नगर अब उक्त शाखा की अधिकारिता के अन्तर्गत आएंगे :--

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. खड़की           | 8. तलेगांव      |
| 2. पिंपरी एमआईडीसी | 9. कामशेट       |
| 3. भोसरी           | 10. राजगुरु नगर |
| 4. चिंचवाड़गाँव    | 11. छाकन        |
| 5. अकुर्डी/निगाड़ी | 12. जुनार       |
| 6. देहु रोड        | 13. नारायणगाँव  |
| 7. लोनावाला        |                 |

टी. कार्तिकेयन  
निर्देशक और कार्यकारिक सचिव

### सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जून 2008

सं.ए-36011/1/08-प्रश्ना.-III. रंगारजन आयोग रिपोर्ट 2001 की सिफारिशों और केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों (सीओसीएसएसओ) के 15वें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि आधारी संरचना सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीआईएसएस) का निम्नानुसार गठन किया जाए:-

#### 1. समिति का गठन

- |        |   |         |
|--------|---|---------|
| i)     | महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन   | अध्यक्ष |
| ii)    | अपर महानिदेशक, रा.ले.प्र., के.सां.रां.  | सदस्य   |
| iii)   | प्रतिनिधि, आधारी संरचना संबंधी समिति सचिवालय, योजना आयोग                                | सदस्य   |
| iv)    | प्रतिनिधि, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक            | सदस्य   |
| v)     | प्रतिनिधि, आधारी संरचना प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय                      | सदस्य   |
| vi)    | आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली | सदस्य   |
| vii)   | प्रतिनिधि, कार्यला मंत्रालय   | सदस्य   |
| viii)  | प्रतिनिधि, आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय  | सदस्य   |
| ix)    | प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय  | सदस्य   |
| x)     | प्रतिनिधि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग   | सदस्य   |
| xi)    | प्रतिनिधि, नौवहन विभाग  | सदस्य   |
| xii)   | प्रतिनिधि, नागर विमानन मंत्रालय   | सदस्य   |
| xiii)  | प्रतिनिधि, दूरसंचार विभाग   | सदस्य   |
| xiv)   | प्रतिनिधि, विद्युत मंत्रालय   | सदस्य   |
| xiv)   | प्रतिनिधि, नगर विकास मंत्रालय   | सदस्य   |
| xvi)   | प्रतिनिधि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  | सदस्य   |
| xviii) | प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय   | सदस्य   |



## भारतीय बीमांकक संस्थान

### 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् की दूसरी रिपोर्ट

31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और 08.09.2007 को अंतिम वार्षिक साधारण बैठक से इस अवधि तक के लिए गतिविधियों की अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में परिषद् को प्रसन्नता है।

#### **1. वातावरण**

भारतीय बीमांकक संस्थान की स्थापना बीमांकक व्यवसाय को विनियमित एवं विकसित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों एवं उसके अनुषंगी के लिए सेवा में एक सांविधिक व्यावसायिक निकाय के रूप में 2006 के अंत में की गई है। बीमांकक अधिनियम, 2006 अब भारत में बीमांकक व्यवसाय को नियंत्रित करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 12 के अनुसार नए परिषद् का चुनाव किया जाना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा चुनाव नियमावली अधिसूचित किए जाने की जरूरत है। चूंकि अभी हाल तक ऐसी नियमावली अधिसूचित नहीं की गई थी, अतः परिषद् के सभी कार्य पहले की भारतीय बीमांकक सोसाइटी की कार्यपालक समिति ही संपन्न करती है।

2006-07 के दौरान 100% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि के बाद भारतीय जीवन बीमा उद्योग ने 2007-08 में 23.32% की वृद्धि-दर प्राप्त की थी। दो नई कंपनियों - फ्यूचर जनरली तथा आइडीबीआई फोर्टिस ने जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया। 2007-08 के दौरान जीवनेतर बीमा में वृद्धि दर 12.63% की रही। 'फ्यूचर जनरली' तथा 'यूनिवर्सल सोम्प्रो' ने जीवनेतर बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया। बीमा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती रहेगी क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना है।

अब तक बीमा उद्योग के विस्तार का लाभ समाज के वित्तीय रूप से उच्च वर्ग को ही मिला है। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) ने इस दिशा में पहल की और लघु बीमा विनियमावली (एमआरआइ) शुरू किया जिसका उद्देश्य समाज के वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग को बीमा कवर प्रदान करना है। साधारण बीमा क्षेत्र के विभिन्न दावों के लिए प्रीमियम दरों के प्रशुल्क हटाने देने से जीवनेतर क्षेत्र में भी बीमांककों की भूमिका बढ़ गई है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का प्रवेश भी बढ़ रहा है क्योंकि न केवल जीवन तथा जीवनेतर कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं बल्कि कुछ बीमाकर्ता जो केवल स्वास्थ्य से संबंधित बीमा ही करते हैं, भी इस क्षेत्र में उतर गए हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि-दर 2007-08 के दौरान 700% को पार कर गया।

अभी हाल ही में, देश के राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। सरकार से वाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया है किंतु सदन में अपना बहुमत सिद्ध करके सरकार बनी रही। अब उम्मीद है कि

बीमा क्षेत्र में विदेशी सहभागिता सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने, धनिय निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक पास करने, बीमा अधिनियम, 1938 आदि में संशोधन करने जैसे विचारधर्म मामलों को लेकर सुधारों को संस्था आगे बढ़ा सकती है। इनसे भारत में बीमा क्षेत्र में उच्चतर वृद्धि हो सकती है।

बढ़ती हुई बीमांकिक भूमिका के साथ-साथ, व्यवसाय के प्रोफाइल को अन हित में काम करने के लिए बढ़ाए जाने की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की न केवल जरूरत है बल्कि उनके लिए मुद्दों का पुर्वानुमान लगाना भी जरूरी है। इसके लिए बीमांकिक विज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग के लिए सुसंगत सभी विषयों में ज्ञान एवं अनुसंधान के संवर्धन की अपेक्षा है।

## 2. सदस्यता

संस्थान की निम्न सदस्यता बढ़कर 4.51% हो गई है जिसका विश्लेषण नीचे दिया गया है:

### 2.1 विश्लेषण

सदस्यता की श्रेणी	31.3.2002 को	31.3.2003 को	31.3.2004 को	31.3.2005 को	31.3.2006 को	31.3.2007 को	31.3.2008 को
अध्यक्ष (फेलो)	204	20	204	203	213	217	215
सदस्यता							
सम्बद्ध सदस्यता	19	23	24	18	23	27	38
सह-सदस्यता	122	118	120	136	131	135	134
सह-सदस्यताओं के अलावा अन्य	1494	1905	2815	3486	5852	6200	6518
योग	1839	2246	3163	3843	5919	6579	6885
मानार्थ अभियेता	6	6	6	6	6	6	6
सकल योग	1845	2252	3169	3849	5925	6585	6891

यह देखा जा सकता है कि सदस्यता में वृद्धि केवल छात्रों में हुई है।

## 3. समितियाँ/सलाहकार समूह तथा परिषद्

### 3.1 पदाधिकारियों का चुनाव

भारतीय बीमांकिक संस्थान के गठन के परिणामस्वरूप, बीमांकिक अधिनियम, 2006 को धारा 12 उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अनुसार, केन्द्र सरकार से 'बीमांकिक (परिषद् का चुनाव) नियमावली, 2007' को अधिसूचित किए जाने की अपेक्षा थी। चूंकि वर्ष 2007-08 के अंत तक ये नियम अधिसूचित नहीं किए गए, अतः परिषद् का चुनाव नहीं किया गया और ऐसी स्थिति में 31 जुलाई, 2007 तक वही परिषद् कार्यरत रही और आज की तारीख तक है।

### 30.6.2008 तक कार्यरत परिषद् के सदस्य

#### क्रम सं. सदस्य के नाम

1. जी एन अग्रवाल, अध्यक्ष
2. के एस गोपालकृष्णन, उपाध्यक्ष
3. हीरक बसु, अवैतनिक सचिव
4. जी सी चतुर्वेदी (केन्द्रीय सरकार के नामिती)
5. आर कन्नन (बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण से नामिती)
6. पी ए बालासुब्रमणियन
7. एन एम गोवर्धन
8. टी भार्गव
9. एस मधुसूदनन
10. के के वाधवा
11. जी एल एन शर्मा
12. के श्रीराम

### 3.2 बैठकें

8 सितंबर 2007 को अंतिम एजीएम से इस एजीएम तक, निम्नलिखित तारीखों को परिषद् की मुंबई में 6 बैठकें हुईं:

#### क्रम सं. तारीख

1. 08.09.2007
2. 30.11.2007
3. 28.01.2008
4. 15.03.2008
5. 21.06.2008
6. 02.08.2008

### 3.3 पदाधिकारी

निम्नलिखित पदाधिकारी 24.03.2007 से आगे भी संस्थान की सेवा में रहे

1.	जी एन अगरवाल	अध्यक्ष
2.	के एस गोपालकृष्णन	उपाध्यक्ष
3.	हीरक बसु	अवैतनिक सचिव

### 3.4 समितियाँ

#### 3.4.1 शिक्षा तथा परीक्षा समिति

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 12(1) के अनुसार शिक्षा तथा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है:

1.	आर कन्नन	अध्यक्ष
2.	जी एन एन शर्मा	सदस्य
3.	आर वैद्यनाथन	सदस्य

आलोचन वर्ष के दौरान इस समिति को औपचारिक रूप से एक बैठक हुई और इसने सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने सदस्यों और परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह तथा शिक्षा संबंधी सलाहकार समूह के अध्यक्षों के साथ अनेक प्रकार के परामर्श किए।

#### 3.4.2 सीपीडी / सीओपी समिति

बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 12(1) के अनुसार सीपीडी / सीओपी समिति का गठन इस प्रकार किया गया है:

1.	जी एन अगरवाल	अध्यक्ष
2.	के एस गोपालकृष्णन	सदस्य
3.	आर कन्नन	सदस्य

यह समिति परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति यह अभ्यास प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इस समय



अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) नियुक्त बीमाकर्मियों को जीवन, साधारण तथा पुनर्बीमा क्षेत्रों में उनकी विनियामक की भूमिका के अनुपालन के लिए जारी किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अभ्यास प्रमाणपत्र के क्षेत्र के बढ़ने की संभावना है क्योंकि बीमाकर्मिक व्यवसाय के सभी सदस्यों के लिए अभ्यास करने हेतु अधिकारी होने के लिए सीओपी प्राप्त करना अपेक्षित हो सकता है।

### 3.4.3 निवेश समिति

निवेश समिति में निम्नलिखित होंगे:

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. के एस गोपालकृष्णन | अध्यक्ष |
| 2. हीरक बसु          | सदस्य   |
| 3. एस मधुसूदनन       | सदस्य   |

यह समिति परिषद् को रिपोर्ट करती है। इसकी जिम्मेदारियां ये हैं:

- परिषद् को एक निवेश नीति की सिफारिश करना,
- निवेश नीति के अनुसार, निवेशों की बिक्री-सहित, निवेश-निर्णय लेना।

28 सितंबर 2007 को अपने गठन के बाद से इस समिति की 30 जनवरी 2008 को बैठक हुई और संस्थान के नकदी प्रवाह अनुमानों की उपयुक्त समीक्षा के बाद निवेश निर्णय लेने के लिए इसने ई-मेल के माध्यम से सक्रिय रूप से सहभागिता में भाग लिया। इस अवधि के दौरान, समिति ने परिषद् को एक निवेश नीति की सिफारिश की जिसे 15 मार्च 2008 को मान लिया गया।

### 3.4.4 लेखा परीक्षा समिति

आज की तारीख को इस समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. आर कन्नन               | अध्यक्ष |
| 2. हीरक बसु               | सदस्य   |
| 3. एस मधुसूदनन            | सदस्य   |
| 4. प्रदीप कुमार महापात्रो | सदस्य   |

यह समिति परिषद् को रिपोर्ट करती है। इसकी जिम्मेदारियां ये हैं:

- संस्थान के वित्तीय विवरणों की आवधिक समीक्षा करना और अपने अभिमतों के साथ परिषद् को उसे प्रस्तुत करना,

- परिषद् को आतंरिक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को सिफारिश करना,
- प्रत्येक समिति के कार्यवृत्त (मिनट्स) अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

इस समिति की पहली बैठक 23 मई 2008 को हुई और इसने संस्थान के वित्तीय विवरणों को समीक्षा की। इसकी दूसरी बैठक 2 अगस्त 2008 को 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लेखों की समीक्षा के लिए हुई।

### 3.5 सलाहकार समूह

#### 3.5.1 शिक्षा-संबंधी सलाहकार समूह

शिक्षा-संबंधी सलाहकार समूह का गठन अध्यक्ष के दिनांक 29 सितंबर 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	वी राजगोपालन	अध्यक्ष
2.	वरुण गुप्ता	सचिव
3.	बी एन रमराजन	सदस्य
4.	विभा बगोड़िया	सदस्य
5.	एस मधुसूदनन	सदस्य
6.	धीरज मिश्रा	सदस्य
7.	देवाशिश सेनगुप्त	सदस्य
8.	संकर्षण बसु	सदस्य
9.	राजेश डालमिया	सदस्य

इस समूह ने एसए लेवल के विषयों में शामिल किए जाने के लिए भारत - विशिष्ट सामग्री की पहचान के लिए उप-समिति के गठन के संबंध में कार्रवाई शुरू की। इसके अतिरिक्त, यह समूह अपने पास भेजे गए कार्य की अन्य मदों को भी देखता है, जैसे आइएए अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट विषयों में पाठ्यक्रम के कवरेज की पर्याप्तता, सीएएस तथा एसओए जैसे अन्य निकायों द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं में पास हुए विषयों के संबंध में हमारा परीक्षाओं से सभव छूट। उपर्युक्त में निर्धारित भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों पर आधारित भावपूर्ण के लिए अन्य गतिविधियों की आयोजना बनाई जाती है।

### 3.5.2 परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह

परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह का गठन अध्यक्ष के 29 सितंबर 2007 के कार्यालय आदेश द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	एस मधुसूदन	अध्यक्ष
2.	आर श्रीनिवास राव	सचिव
3.	जे एस सालुंखे	सदस्य
4.	धीरज मिश्रा	सदस्य
5.	डी साई श्रीनिवास	सदस्य
6.	ए के सिंह	सदस्य
7.	जी एल एन शर्मा	सदस्य
8.	अर्पण थानावाला	सदस्य

आलोच्य अवधि में सलाहकार समिति की 19.07.2007, 16.08.2007, 20.10.2007, 15.12.2007, 05.01.2008, 08.02.2008 तथा 07.06.2008 को बैठक हुई।

### 3.5.3 जीवन बीमा संबंधी सलाहकार समूह

जीवन बीमा संबंधी सलाहकार समूह के आज की तारीख तक सदस्य इस प्रकार हैं:

1.	जी एन अगरवाल	अध्यक्ष
2.	जी एल एन शर्मा	सचिव
3.	के एस गोपालकृष्णन	सदस्य
4.	आर कन्नन	सदस्य
5.	ए वेंकटसुब्रमणियन	सदस्य
6.	वी राजगोपालन	सदस्य
7.	हीरक बसु	सदस्य
8.	निक टाकेत	सदस्य
9.	जॉन पूल	सदस्य
10.	एन एम गोवर्धन	सदस्य

### सलाहकार समूह की गतिविधियाँ

- राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआइए), पुणे में 2 तथा 3 अगस्त 2007 को जीवन बीमा में वर्तमान मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इस सेमीनार में 55 लोगो ने भाग लिया।
- 14 मार्च 2008 को आर्थिक पूँजी पर एक सेमीनार आयोजित किया गया। इसमें 60 से ज्यादा सहभागियों ने भाग लिया। आर्थिक पूँजी - अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, संस्था विशेष के अध्ययनों पर इसमें चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण विषय पर श्री मार्क सौडर्स, श्री जान फूले, श्री एलेन हाइट, डा. के श्रीराम ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय बीमांकक संस्थान के अध्यक्ष श्री जी एन अग्रवाल ने सहभागियों को संबोधित किया।
- बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) की सहमति से मार्गदर्शी नोट 7 जारी किया गया है। मार्गदर्शी नोट 2 में आशोधन के लिए उस्ताव किया गया है और समूह इस पर चर्चा कर रहा है।

### 3.5.4 साधारण बीमा संबंधी सलाहकार समूह

साधारण बीमा संबंधी सलाहकार समूह का गठन 28 सितंबर 2007 को किया गया और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

#### समूह के सदस्य:

1.	एन लक्ष्मणन	अध्यक्ष
2.	एस बालकृष्णन अग्रवाल	सचिव
3.	के सुब्रह्मणियम	सदस्य
4.	वीरेश गिरी	सदस्य
5.	पी ए बालासुब्रमणियम	सदस्य
6.	ए आर प्रभू	सदस्य
7.	वी गोविन्दन	सदस्य
8.	एन के गणेश	सदस्य

इस समूह को पहली बैठक भारतीय बीमांकक संस्थान के कार्यालय मुंबई में दिसंबर 2007 के प्रथम सप्ताह में हुई थी। इसमें विचार-विमर्श के मुख्यतः दो क्षेत्र थे - सीपीडी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण और नियुक्त बीमांकक के संबंध में मार्गदर्शी नोट 21 का प्रारूप तैयार करना तथा

यह समूह सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत था कि साधारण बीमा के विभिन्न वर्गों के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जरूरत है जिसमें उत्पाद विशेषताओं, जोखिम तत्त्व, दर/मूल्य निर्धारण पर विचार-विमर्श करना, हामीदारी तथा सेवा पहलुओं आदि को शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य यह था कि जीवनेतर बीमा उद्योग में कार्यरत नियुक्त बीमाकर्मियों, बीमांकिकी छात्रों तथा हामीदारों को और विस्तृत एवं गहरी जानकारी दी जाए ताकि बीमांककों को विभिन्न विभागों के कार्यचालन का व्यापक परिदृश्य देखने को मिले।

जीएन 21 को 6 जनवरी 2008 को अंतिम रूप दिया गया और आगे विचार के लिए उसे 30 जनवरी 2008 को एजीपीएस को भेजा गया।

आलोच्य वर्ष के लिए साधारण बीमा पर पहला सेमीनार 5-6 जून 2008 को आयोजित किया गया और उसे बहुत ही अधिक सफलता मिली। सहभागियों ने उसे अत्यंत उपयोगी पाया।

### 3.5.5 पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी समूह

पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी समूह की सदस्यता आज की तारीख तक इस प्रकार है:

1.	के पी शर्मा	अध्यक्ष
2.	बी एन रंगराजन	सचिव
3.	अर्पण थानावाला	सदस्य
4.	के के वाधवा	सदस्य
5.	ए डी गुप्ता	सदस्य
6.	आर कृष्णस्वामी	सदस्य
7.	डी के पंडित	सदस्य
8.	अनुराधा श्रीराम	सदस्य

आलोच्य अवधि के दौरान पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा समिति का पुनर्गठन पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा सलाहकार समूह (एबीपीएसएस) के रूप में किया गया है और उसकी पहली बैठक 22 दिसंबर 2007 को तथा दूसरी एवं तीसरी बैठक क्रमशः 19 जनवरी 2008 तथा 28 फरवरी 2008 को हुई। पिछले वर्ष के दौरान एबीपीएसएस का मुख्य जोर एएस 15 (आर) तथा नए मुद्दों से संबंधित मामलों पर विचार करना जारी रहा जो एएस 15 (आर) के लागू करने में एएसबी मार्गदर्शक के साथ प्रकाश में आए। माननीय सदस्यों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद एबीपीएसएस ने नए मार्गदर्शी नोट जीएन 26, एएस 15 (संशोधित, 2005) के अंतर्गत बीमांकिक रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया है। संस्थान के वेबसाइट पर जीएन 26 की अंतिम प्रति इस समय उपलब्ध कराई गई है।

इस अवधि में एबीपीएसएस ने दो अन्य भारगदर्शी नोट का प्रारूप तैयार किया है - एक प्रातिपूरक अनुपस्थितियों के संबंध में, जिसे समूह के सदस्यों ने म्वोकार कर लिया है और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है तथा दूसरा भविष्य निधि व्याज दर गारंटी एवं उसके उपचार के संबंध में है जो समूह के सदस्यों के विचाराधीन है। इस अवधि में एबीपीएसएस ने वर्तमान भारगदर्शी नोटों की समीक्षा भी की है तथा इस विषय में निम्नलिखित सशोधनों को तानू कर दिया है।

पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा सलाहकार समूह ने सनदी लेखाकारों के लिए 21 जून को एक सेमिनार आयोजित किया और सनदी लेखाकारों को वह बहुत अच्छा लगता तथा दोनों व्याख्यायिक निकाशों के बीच सबको को सुदृढ़ करने में इससे सहायता मिलेगी।

### 3.5.6 व्यावसायिक कार्य तथा मानक संबंधी सलाहकार समूह

इस सलाहकार समूह के सदस्य आज की तारीख को इस प्रकार हैं:

1.	आर कन्नन	अध्यक्ष
2.	संजीव पुजारी	सचिव
3.	एन एम गोवर्धन	सदस्य
4.	जे एस सालुंखे	सदस्य
5.	माइक वुड	सदस्य
6.	पीटर एकर्स	सदस्य
7.	ए आर प्रभु	सदस्य

आलोच्य अवधि में, इस सलाहकार समूह ने संबंधित मामलों पर 14.12.2007, 13.03.2008 तथा 19.06.2008 को तीन बैठकें कीं।

इस अवधि में समिति ने 'इंडिया फेलोशिप सेमिनार' के दो आयोजन 13/15 दिसंबर 2007 को तथा 19/20 जून 2008 को आयोजित किए गए जो आईएफएस के क्रमशः 8वें एवं 9वें आयोजन थे।

इस सलाहकार समूह द्वारा हाथ में ली गई गतिविधियां संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- 'सामाजिक और लेखा परीक्षक की भूमिका' पर एक प्रारूप नीति विवरण सामाजिक तथा लेखा परीक्षा व्यवसाय में आगे चर्चा के लिए तैयार की गई है।

- 'इंडिया फेलशिप सेमीनार' की विषयवस्तु तथा गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा की जा रही है।
- कतिपय विद्यमान जीएन में परिवर्तन शुरू किए गए हैं और उन्हें लागू किया गया है। अन्य जीएन की भी समीक्षा वर्ष के दौरान की जाएगी।

### 3.5.7 प्रशासन संबंधी सलाहकार समूह

इस सलाहकार समूह के सदस्य आज की तारीख तक ये हैं:

1.	जे एस सालुंखे	अध्यक्ष
2.	भरत वेंकटरमणी	सचिव
3.	एम जयरामन	सदस्य
4.	आर श्रीनिवास राव	सदस्य
5.	एस मधुसूदनन	सदस्य
6.	पूर्णमा गुप्ते	सदस्य
7.	हीरक बसु	सदस्य
8.	के के वाधवा	सदस्य
9.	टी भार्गव	सदस्य
10.	जी एल एन शर्मा	सदस्य

आलोच्य वर्ष के दौरान सलाहकार समूह की बैठक 12 मई 2007, 4 अगस्त 2007 तथा 3 नवंबर 2007 को हुई।

10 नवंबर 2006 से भारतीय बीमांकिक संस्थान के गठन के फलस्वरूप, इस सलाहकार समूह ने प्राथमिकता आधार पर आइएआइ वेबसाइट को नया रूप देने के मुद्दे की जांच की और नीचे दिए गए प्रकार से वेबसाइट को विकसित करने की सिफारिश की:

- चरण 1 : तत्काल परिणामी सुधार किए जाएं और सभी संगत सूचना प्रदानकर्ता (प्रोवाइडर) के रूप में इस साइट को विकसित किया जाए।
- चरण 2 : इस साइट को सदस्यता डाटाबेस से सम्बद्ध किया जाए ताकि कोई सदस्य अपने से संबंधित सूचना देख सके।
- चरण 3 : सदस्यों को गैर-वित्तीय कामकाज (पता परिवर्तन, सीपीडी अद्यतन करने आदि) की अनुमति दी जाए।

- चरण 4 : सदस्यों को वित्तीय कामकाज करने की अनुमति दी जाए (आन लाइन अंशदान, परीक्षा शुल्क आदि)।

उक्त सलाहकार समूह ने आंतरिक तथा बाह्य टेलीफोन संचार के लिए आइएआइ प्रशासन की आधारभूत जरूरतों की जांच की और उपयुक्त ईपीएबीएक्स प्रणाली स्थापित करने के लिए सिफारिश की।

इस सलाहकार समूह ने 'मेम्बर ट्रेकर सिस्टम' स्थापित करने के बारे में परियोजना के प्रगति की और आइएआइ की बदली हुई अपेक्षाओं के संदर्भ में इस सिस्टम को लागू करने में प्रशासन के सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों की जांच की। समूह ने नए सामर्थ्यवैयर्थ विकसित करने की सिफारिश की जो सदस्यों को तथा आइएआइ के प्रबंधन को पर्याप्त एवं त्वरित सहयोग प्रदान के लिए प्रशासन की जरूरतों को व्यापक तौर पर पूरा कर सकेगी और इसके लिए उन्होंने एक उपयुक्त वेंडर की पहचान की सिफारिश की।

### 3.5.8 वित्तीय जोखिम प्रबंधन संबंधी सलाहकार समूह

इस सलाहकार समूह के सदस्य आज की तारीख तक ये हैं:

1.	के एस गोपालकृष्णन	अध्यक्ष
2.	राजेश डालमिया	सचिव
3.	एम एस वी एस फणेश	सदस्य
4.	आर वैद्यनाथन	सदस्य
5.	आर कलान	सदस्य
6.	हेममालिनी आर	सदस्य
7.	के श्रीराम	सदस्य

यह समूह वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन में बीमांकिक अनुप्रयोगों का कामकाज एवं उनका संवर्धन, वित्तीय सेवा उद्योग के विनियामक पहलुओं तथा आइएआइ सदस्यों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने में संबंधित मुद्दों का कार्य भी देखता है।



### 3.5.9 स्वास्थ्य बीमा संबंधी सलाहकार समूह

स्वास्थ्य बीमा संबंधी सलाहकार समूह के सदस्य ये हैं:

1.	पी ए बालासुब्रमणियन	अध्यक्ष
2.	डी साई श्रीनिवास	सचिव
3.	रोबर्ट प्रोचनो	सदस्य
4.	हेबर्ट मिस्टर	सदस्य
5.	ए वेंकटसुब्रमणियन	सदस्य
6.	रिचर्ड किप्प	सदस्य
7.	के सुब्रह्मणियम	सदस्य
8.	टी भार्गव	सदस्य

### आलोच्य अवधि के दौरान गतिविधियां:

आलोच्य अवधि में इस समूह की 16 जनवरी 2008 को बैठक हुई।

**विषय एसए 1 के लिए सामग्री - समीक्षा एवं भावी कार्रवाई**

**स्वास्थ्य बीमा संबंधी जन चेतना - समीक्षा एवं भावी कार्रवाई**

**स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में साधारण बीमा परिषद् के साथ संबंध स्थापित करना - समीक्षा एवं भावी कार्रवाई**

यह तय किया गया कि साधारण बीमा परिषद् के महा सचिव के साथ इस बारे में चर्चा की जाए।

इस समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, 'स्वास्थ्य बीमा एवं सावधानी' विषय पर एक सेमीनार 17-18 जनवरी 2008 को एनआइए, पुणे में आयोजित किया गया। बीमा उद्योग से इसमें 140 सहभागियों ने भाग लिया।

### 3.5.10 'एक्चुअरी इंडिया' संबंधी सलाहकार समूह

'एक्चुअरी इंडिया' भारतीय बीमांकक संस्थान की एक मासिक पत्रिका है। संस्थान के सदस्यों के लिए बीमांकक व्यवसाय में विभिन्न गतिविधियों के बारे में विचार-विनिमय का यह एक माध्यम है। संव्यावसायिक अनुभवों को आपस में बांटने के लिए यह पत्रिका एक अवसर प्रदान करती है।

‘ऐक्चुअली इंडिया’ संबंधी सलाहकार समूह के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	हार्दक बंधु	अध्यक्ष
2.	सुनील शर्मा	सदस्य
3.	सत्यन जम्बूनाथन	सदस्य
4.	शिल्पा मैने-रुण	सदस्य
5.	भरत वेंकटरमणी	सदस्य
6.	नयना दलवी	सदस्य

इसके मासिक अंक में संस्थान के सदस्यों तथा गैर-सदस्यों दोनों के लेख होते हैं। इस पत्रिका में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न आयोजनों के संबंध में रिपोर्टें तथा घोषणाओं के अलावा व्यवसाय विषयक रुचि की सामग्री शामिल की जाती है। विगत वर्ष ने इसमें शामिल किए गए क्षेत्रों में विनोद रिपोर्टिंग में उतार-चढ़ाव, पेशन देयता प्रबंधन, जंगिम प्रबंधन, मृत्यु सख्ता तथा छात्रों के लिए सुझाव शामिल थे।

‘ऐक्चुअली इंडिया’ की प्रतियां संस्थान के सभी सदस्यों, विभिन्न प्रबंधन संस्थानों, प्रेस, जीवन तथा साधारण बीमा कंपनियों, बीमाकर्तों परामर्शदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक निकायों को भेजी जाती हैं। इस पत्रिका का मासिक अंक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

### 3.5.11 छात्र कार्य-दल

छात्र कार्य दल का गठन इस प्रकार किया गया है:

दल के सदस्य:

1.	वी गोविंदन	अध्यक्ष
2.	जी गोपाल	सदस्य
3.	आर श्रीनिवास राव	सदस्य

विगत वर्षों की तुलना में उम्मीदवारों से प्राप्त कुछ शिकायतों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया है। इन शिकायतों का संबंध नवंबर 2007 की परीक्षा के सीटी 3, सीटी 6 तथा सीटी 8 से है:

### 4. बीमांककों का दसवां विश्व सम्मेलन

बीमांककों का दसवां विश्व सम्मेलन होटल ताज प्रेसिडेंस, मुंबई में 7-8 फरवरी 2008 को आयोजित किया गया। भारत और विभिन्न अन्य देशों से 500 से अधिक संव्यावसायिक लोग ताज प्रेसिडेंसी मुंबई के वातावरण में उपस्थित हुए थे। इस सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक निकायों के सभापति/अध्यक्ष काफी बड़ी संख्या में उपस्थित थे - जैसे, यूके बीमांकिक

संस्थान, आस्ट्रेलिया बीमांकक संस्थान, यूके बीमांकक संकाय, साइप्रस बीमांकक संघ, जापान बीमांकक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय बीमांकक संघ। इस भव्य अवसर के साक्षी मंच पर सम्मानित अतिथि थे - श्री सी.एस. राव, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, श्री डैविड जी. हर्टमैन, सभापति, अंतर्राष्ट्रीय बीमांकक संघ, श्री ओलिवर रोलेँड्स, हेड आफ रिग्यरमेंट, ईएमईए, यूके, एओएन, डा वुल्फ बेक, सीईओ, हैनोवर लाइफ रे, श्री जी.एन. अगरवाल, अध्यक्ष, आइएआइ तथा श्री के.एस. गोपालकृष्णन, उपाध्यक्ष, आइएआइ।

## 5. पुस्तकालय

आइएआइ का पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है और बीमांकक तथा अन्य संबंधित विषयों पर यहां पुस्तकों का अच्छा संग्रह है।

रुचि के विषय में और अध्ययन के लिए सामग्री पाने हेतु पुस्तकालय एक मिलन स्थल है। आइएआइ की सदस्यता में वृद्धि के साथ-साथ पुस्तकालय की सदस्यता में बढ़ोतरी हो रही है। आज की तारीख तक पुस्तकालय की सदस्यता लगभग 1400 है।

## पत्र-पत्रिकाएं

पुस्तकालय में अन्य विभिन्न बीमांकक संस्थानों की पत्र-पत्रिकाएं हैं - जैसे, द ऐक्चुअरी - स्टैपल इन, द ऐक्चुअरी - एसओए, ऐक्चुअरी आस्ट्रेलिया, इरडा जर्नल, ब्रिटिश ऐक्चुरियल जर्नल, तथा आस्ट्रेलियन ऐक्चुरियल जर्नल।

## लिबसिस: पुस्तकालय साफ्टवेयर

वेब-ओपीएसी की प्रक्रिया प्रगति पर है। इससे सदस्यों को पुस्तकालय का पुस्तक कैटलाग ऑनलाइन बाउज करने में सहायता मिलेगी। वेबसाइट पर पुस्तकालय की पुस्तकों की विषयवार सूची उपलब्ध है।

## 6. 2007-2008 के वित्तीय विवरण का विश्लेषण

वर्ष 2006-2007 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय बीमांकक संस्थान के गठन के फलस्वरूप दो अलग-अलग तुलनपत्र इस प्रकार तैयार किए गए थे:

1. 1 अप्रैल 2006 से 9 नवंबर 2006 तक भारतीय बीमांकक सोसाइटी के लिए।
2. 10 नवंबर 2006 से 31 मार्च 2007 तक भारतीय बीमांकक संस्थान के लिए।

2007-2008 के दौरान भारतीय बीमांकक संस्थान के लिए केवल एक तुलनपत्र तैयार किया गया है। संस्थान की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तैयार करने के लिए, वर्ष 2006-2007 के लिए दोनों (एएसआइ तथा आइएआइ) के आंकड़ों को एक साथ लिया गया है और वर्ष 2007-2008 से संबंधित आंकड़ों से इनकी तुलना की गई है।

### 1. तुलनपत्र

- क) 2006-2007 की तुलना में न्यास निधि तथा समग्र निधि लगभग 50% बढ़ गई है। 2007-2008 में स्वस्थ समग्र निधि के सृजन से ऐसा हो गया है।
- ख) चालू देयताएँ लगभग 39% तक बढ़ गई हैं। 2007-2008 के दौरान देयता के रूप में दिखाए गए लगभग 11 लाख रु पर मई 2008 की उच्चतर परीक्षा कीस के कारण प्राप्त हुए और लगभग 10 लाख रु पर भुगतान के लिए बकाया बिलों में बढ़ गए।
- ग) निवेश में लगभग 43% की वृद्धि हुई। इसमें अलग से उद्दिष्ट की गई निधियों का निवेश शामिल है जो 42% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष में 35.33% की बढ़ोतरी के कारण भी यह वृद्धि हुई।
- घ) ऋण तथा अग्रिम की राशि बढ़कर 59% हो गई। यह वृद्धि उपचित ब्याज के कारण है किंतु निवेश (वृद्धि 59%) पर देय नहीं है और स्रोत पर की गई कर की कटौती जो आयकर प्राधिकारियों से वसूली जानी है (वृद्धि 81%)।

### 2. आय तथा व्यय

- क) पिछले वर्ष की तुलना में 2007-2008 में सृजित अधिशेष 33.19 लाख रुपए (35.33%) ज्यादा था।
- ख) इस वर्ष कुल आय लगभग 38% बढ़ी। कुल राजस्व का 73% शैक्षिक सेवा एवं परीक्षा शुल्क के माध्यम से सृजित हुआ। कुल राजस्व में सदस्यों का अशदान लगभग 12% है। निवेश पर ब्याज आय लगभग 8% है जो पिछले वर्ष की तुलना में 52% ज्यादा है।
- ग) पिछले वर्ष की तुलना में कुल खर्च (लेखा परीक्षा शुल्क एवं परीक्षाओं की छोड़कर) में लगभग 11% की वृद्धि हुई जो संस्थान की गतिविधियों में वृद्धि के अनुरूप है।

### 7. सामान्य साधारण बैठक (ओजीएम)

इस अवधि में कोई सामान्य साधारण बैठक नहीं हुई।

### 8. आधार

भारतीय बीमांकक संस्थान का स्टाफ निरंतर कठोर परिश्रम करता रहा और सतत बढ़ रहे कार्यभार के साथ कदम-से-कदम मिलाते हुए उसने उच्च स्तर की वचनबद्धता का प्रदर्शन किया।

विभिन्न समितियों तथा सलाहकार समूहों ने पूरे वर्ष-भर अपना योगदान दिया तथा सन्वावसायिकता का अत्यंत उच्च मानदंड अपनी गतिविधियों से प्रकट किया।

परीक्षकों तथा मार्क्षरों ने परीक्षाओं के सनातन में अपना योगदान दिया जिससे एक विश्वसनीय सन्वावसायिक परीक्षा निकाय के रूप में भारतीय बीमांकक संस्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा

**भारतीय बीमांकक संस्थान****वित्तीय विवरण**

**खांडवाला एंड शाह**  
**सनदी लेखाकार**

जी-3, 8 वीं मंजिल, 'एवरेस्ट'  
156, ताड़देव रोड, ताड़देव  
मुंबई - 400 034.

**भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद् के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट****भारतीय बीमांकक संस्थान**

- 1) हमने 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखों के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त भारतीय बीमांकक संस्थान का संलग्न तुलनपत्र इसके साथ दिया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
- 2) हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारियों के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन के साथ शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
- 3) हम रिपोर्ट करते हैं कि -
  - क) हमें वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - ख) हमारी राय में बीमांकक अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखे रखे गए हैं।
  - ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे खाता-बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में तुलनापत्र तथा आय-व्यय लेखे संगत लेखांकन मानकों के अनुसार है।

ङ) हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त लेखे तथा उनके संवत् में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित ये लेखे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

- i) 31 मार्च, 2008 को कार्यों की स्थिति के तुलनापत्र के बारे में राय।
- ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता वाले आय एवं व्यय लेखे के विषय में।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 04 अगस्त 2008

खांडवाला पंड शाह, सनदी लेखाकार  
के लिए और उसकी ओर से

ह/-

(प्रेमल पी. नांधी)

भारतीय

सदस्या सं. 45462

## भारतीय कोषाधिक संस्थान

31 मार्च, 2008 को तुलनामक

31.03.07 को	निधियाँ एवं देयकार	अनुपूर्वकी	31.03.08 को	31.03.07 को	संपत्ति एवं पतिसंपत्तियाँ	अनुपूर्वकी	31.03.08 को
25,252,331.29	भूमी एवं आरक्षित निधि	"न"	37,961,372.25	2,568,831.43	अपत्य परिसंपत्तियाँ	"न"	1,061,893.19
1,383,100.47	उपग्रह सेवा सम्पत्ति निधि	"ख"	3,494,108.03	49,330,896.00	निधियाँ	"ख"	75,723,451.00
16,303,703.46	उद्दिष्ट/समाप्त निधि	"ग"	20,433,046.51		सन्तु पतिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अधिपति		
1,442,189.49	अन्य उद्दिष्ट निधि	"घ"	1,785,942.75	1,603,953.37	को: नकदी एवं बैंक भण्ड	"ग"	1,780,514.97
5,844,912.62	भारत देयकार	"ङ"	8,472,285.00	354,016.25	उप: निधि देयकार	"ङ"	270,534.25
8,456,585.89	भारतीय क्षेत्राधिकार संस्थान- सन्तु/समाप्त और कार्यालय अन्तर्गत फंड (एनएसआर)	"च"	11,146,088.32	3,923,018.37	अ: ऋण एवं अधिपति	"च"	6,281,188.45
57,780,423.42			81,023,421.86	57,780,423.42			81,023,421.86

जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण संख्याओं के लिए विवरण दिया गया है

सम संख्यात तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते धोखाधड़ी एवं चाल

सम्बन्धी संस्थाओं

हो-

उपग्रह सेवा

भारतीय

संदर्भित सं. 45482

संयोजक

दिनांक 4 अप्रैल 2008

भारतीय कोषाधिक संस्थान

हो-

जी. एन. अग्रवाल

अध्यक्ष

हो-

के. एल. गोपालकृष्ण

उपस्थित

हो-

हिरक बसु

प्रमुख सचिव





31.03.2008 को वृत्तमान की अनुसूची

31.03.07 को	बारे	31.03.08 को	31.03.08 से
<b>अनुसूची क</b>			
<b>पूँजी तथा आरक्षित निधियाँ</b>			
<b>क) पूँजी</b>			
<b>निम्नलिखित द्वारा दान की गई पूँजी :</b>			
345,000.00	i) राजधानी द्वारा दान की गई पूँजी :	345,000.00	
500,000.00	ii) राजधानी द्वारा दान की गई पूँजी :	500,000.00	
151,270.00	iii) अन्य निधियाँ	151,270.00	
<b>976,270.00</b>	<b>31.03.2007 को से</b>	<b>976,270.00</b>	<b>2008</b>
<b>ख) सामान्य आरक्षित निधियाँ</b>			
23,688,912.12	01.11.2006 को से	24,206,661.29	2007
671,136.28	जोड़िए : आय तथा व्यव लेख से अतिरिक्त	12,746,036.08	
1,137.13	घटाइए : औसीए (अनुसूची-ख (vi) में विशेष मन्त्र के पत्र के लिए आय का प्रस्ताव)	16,000.00	
53,250.00	घटाइए : प्रोकेसर की एर दीवत स्मारक इन्फ्रस्ट्रक्चर फंड (अनुसूची ख (क))	0.00	
0.00	घटाइए : राजस्व सेवकीय निधि (अनुसूची ख (क))	0.00	
<b>24,206,661.29</b>	<b>31.03.2007 को से</b>	<b>38,915,700.25</b>	<b>2008</b>
<b>25,282,831.29</b>			<b>Total Rs</b>
			<b>37,981,870.25</b>



31.03.07 को	गोरे	31.03.08 को	31.03.08 तक
<b>अनुसूची ख</b>			
<b>इलाक़ तथा समकृति निर्णियाँ :</b>			
<b>क) प्रोफेसर जी. एन. दीवान स्वातन्त्र्य इनाम (अनुसूची निर्णय) :</b>			
<b>सर्वोच्च शैक्षणिक क्षेत्र एवं शिक्षण एकाइ के लिए :</b>			
0.00	09.11.2006 को शेष	18 फरवरी	0.00
0.00	जोडिपू अकादमी के दौरान आर्बोरेट भाग (अनुसूची (क) के)	2007	0.00
0.00	जोडिपू वर्ष के दौरान प्राप्त		190,900.00
53,230.00	जोडिपू सभाध्य प्रारंभिक शिक्षा से अवसित शिक्षा		0.00
53,230.00	बराबर वर्ष के दौरान दिए गए इनाम		35,000.00
0.00	31.03.2007 को शेष	31 मार्च	65,000.00
<b>ख) प्रोफेसर (विद्यार्थी) जी. एन. दीवान 100 वीं वर्ष गांव स्वातंत्र्य शिक्षा निर्णय</b>			
<b>(आर.एन. शैलदा द्वारा दिया गया धन)</b>			
157,529.44	09.11.2006 को शेष	10 अप्रैल	158,958.00
1,838.56	जोडिपू अवधि वर्ष के दौरान आर्बोरेट भाग (अनुसूची (क) के)	2007	11,155.76
0.00	बराबर वर्ष के दौरान दिए गए इनाम		0.00
159,368.00	31.03.2007 को शेष	31 मार्च	170,113.76
<b>ग) प्रोफेसर जी. एन. दीवान स्वातंत्र्य काकदुलित निर्णय</b>			
<b>(अनुसूचित परिवारों के लिए)</b>			
142,918.51	09.11.2006 को शेष	18 अप्रैल	144,586.55
1,988.04	जोडिपू अवधि वर्ष के दौरान आर्बोरेट भाग (अनुसूची (क) के)	2007	10,171.06
0.00	बराबर वर्ष के दौरान दिए गए इनाम		0.00
144,906.55	31.03.2007 को शेष	31 मार्च	154,757.61



31.03.07 को	बोरे	31.03.08 से	31.03.08 को
658,677.54			754,534.09
भारतीय रेल			
19,912.37	09.11.2006 को रेल	18.575.32	2007
222.95	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	1,300.27	
750.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	2,250.00	
19,875.32	31.03.2007 को		17,535.59
भारतीय वायुसेवा			
98,889.87	09.11.2006 को रेल	20,161.73	2007
231.91	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	1,607.12	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	1,500.00	
20,104.73	31.03.2007 को रेल		20,004.85
भारतीय नौसेना			
222,349.88	09.11.2006 को रेल	214,838.06	2007
2,416.36	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	16,037.96	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
214,829.06	31.03.2007 को रेल		229,896.02
भारतीय वायुसेवा			
79,175.39	09.11.2006 को रेल	79,049.48	2007
504.97	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	5,538.96	
1,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	2,000.00	
79,089.48	31.03.2007 को रेल		82,636.42
भारतीय नौसेना			
32,745.68	09.11.2006 को रेल	32,127.87	2007
382.18	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	2,248.86	
1,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	2,000.00	
32,127.87	31.03.2007 को रेल		32,376.82
भारतीय वायुसेवा			
25,884.10	09.11.2006 को रेल	25,267.12	2007
308.03	जोड़िए : अक्टूबर के दौरान आवृत्ति प्राप्त (अनुपूरी) (रु.) के	1,838.70	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम	0.00	
0.00	31.03.2007 को रेल	2,000.00	
26,262.13			26,105.83



47,515.81	1 अगस्त	2007	47,515.81
3,324.38	जोड़कर : अवशिष्ट वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
0.00	जोड़कर : वर्ष के दौरान प्राप्त		
0.00	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
90,807.19	31-03-2007 को शेष	2008	
<b>का जीसीएफ में निवेश मकूल के वेपर के लिए अन्वयन का पुरस्कार</b>			
0.00	1 अगस्त	2007	0.00
15,009.00	जोड़कर : अवशिष्ट वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
15,009.00	जोड़कर : वर्ष के दौरान प्राप्त		
0.00	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
0.00	31 अगस्त	2008	0.00
<b>बो : विद्युत संचयन गुण प्रदान विधि (अधिकतम सर्वोत्तम फायदा के लिए)</b>			
97,539.49	1 अगस्त	2007	97,539.49
6,034.76	जोड़कर : अवशिष्ट वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
6,034.76	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
98,474.25	31 मार्च	2008	
<b>भः निःशुल्क फायदे जीवन सेवा के दिशि</b>			
0.00	1 अगस्त	2007	0.00
0.00	जोड़कर : अवशिष्ट वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
0.00	जोड़कर : वर्ष के दौरान प्राप्त धन		
0.00	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
2,000,000.00	31 मार्च	2008	
3,494,100.97	Total Rs.		
31,03,08 को	31,03,08 को		31,03,08 को
99,644.11	1 अगस्त	2007	99,644.11
6,575.39	जोड़कर : अवशिष्ट वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
0.00	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
106,219.50	31 मार्च	2008	
<b>सा : निवेश र अनुसंधान : (कर्मचारी)</b>			
281,775.94	1 अगस्त	2007	281,775.94
3,250.73	जोड़कर : वर्ष के दौरान आवंटित धन (अनुसूची (क) के तहत)		
0.00	घटाकर : वर्ष के दौरान दिया गया धन		
301,500.29	31 मार्च	2008	





अनुसूची ग	चरित शर्मादा निधि का :	अनुसूची गी	अनुसूची गी
11,582,989.47	रा. भवन निर्माण निधि :		14,832,477.74
2,149,733.57	08.11.2006 को रोप	3,721,071.99	
1,546,190.28	जोड़िए : जोड़िए 100% अनुदान निधि से अतिरिक्त (अनुसूची ग(ग))	3.80	
0.00	जोड़िए : वर्ष के लिए जोड़िए तथा अनुदान निधि से अतिरिक्त (अनुसूची ग(ग))	4,550,283.80	
25,090.04	जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय (अनुसूची ग(ग))	260,470.98	
3,721,013.89	31.03.2007 को रोप		8,550,568.77
15,303,273.46			20,483,048.51
			योग क.
31.03.07 को	वर्ष के	31.03.08 को	31.03.08 को
अनुसूची घ	अन्य चरित निधिया :		
	का भारतीय जीवन बीमा निगम		
814,371.96	08.11.2006 को रोप		823,476.69
9,504.73	जोड़िए : अतिरिक्त के दौरान अतिरिक्त व्यय (अनुसूची ग(ग))	57,671.37	
0.00	भराइए : आय-व्यय रहने की अवधि	0.00	
823,876.69	31.03.2007 को रोप		631,548.08
	का अटलीयसीआर :		
145,063.71	08.11.2006 को रोप		552,612.53
7,528.92	जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय (अनुसूची ग(ग))	41,682.84	
0.00	भराइए : व्यती को पूरा करने के लिए एपेक्साई को अतिरिक्त व्यय	0.00	
652,612.63	31.03.2007 को रोप		898,295.51
	या सार्वजनिक करत निधि :		
5,634.43	08.11.2006 को रोप		5,700.47
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय (अनुसूची ग(ग))	200,000.00	
65,786	जोड़िए : अतिरिक्त के दौरान अतिरिक्त व्यय (अनुसूची ग(ग))	389.81	
0.00	भराइए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय	0.00	
5,700.47	31.03.2007 को रोप		208,099.48
1,462,189.49			1,785,942.45
			योग क.

[illegible][illegible]

क) एनएसआईटी (पब्लिक कोमन एनएसआईटी)		2007		2008	
01.11.2005 को सेष		1 अप्रैल		31 मार्च	
8,290,183.48				8,455,566.69	
226,002.21				722,004.63	
0.00				0.00	
0.00				52,601.00	
8,456,185.69				9,178,089.32	
31.03.07 को				31.03.08 को	
अनुसूची व					
54,000.00				54,000.00	
70,000.00				70,000.00	
80,000.00				80,000.00	
2,000,000.00				2,000,000.00	
1,000,000.00				1,000,000.00	
1,000,000.00				1,000,000.00	
23,200,000.00				23,200,000.00	
3,015,000.00				3,015,000.00	
1,065,428.00				1,065,428.00	
1,395,980.00				1,395,980.00	
50,000.00				50,000.00	
100,000.00				100,000.00	
1,000,000.00				1,000,000.00	
8,310,000.00				8,310,000.00	
2,000,000.00				2,000,000.00	
2,000,000.00				2,000,000.00	
1,000,000.00				1,000,000.00	
2,000,000.00				2,000,000.00	
49,336,106.00				70,773,351.00	
31.03.07 को				31.03.08 को	
अनुसूची व					
9,794.83				26,307.98	
5,800.00				5,900.00	
34,481.56				34,385.95	
925,983.69				9,301.61	
1,427,919.11				16,797.16	
0.00				1,755,947.96	
0.00				1,755,947.96	
48,946.04				51,602.04	
102,988.00				12,109.60	
1,403,953.37				1,765,514.87	
31.03.07 को				31.03.08 को	
अनुसूची व					
9,794.83				26,307.98	
5,800.00				5,900.00	
34,481.56				34,385.95	
925,983.69				9,301.61	
1,427,919.11				16,797.16	
0.00				1,755,947.96	
0.00				1,755,947.96	
48,946.04				51,602.04	
102,988.00				12,109.60	
1,403,953.37				1,765,514.87	

योग व.

योग व.



अनुसूची 'ब'  
अक्षात  
परिचयपरियां

क्र.सं.	विवरण	सूचकांक की दर %	समस्त खर्च		विशेष समायोजन	31.03.2008 को योग	01.04.07 तक	मुल्यांकन वर्ष के लिए		नियत स्तरीय	
			वर्ष के दौरान परिकल्पना	जब				वर्ष के लिए	31.03.08 तक	31.03.08 से	31.03.07 को
1	वाटर पुरिफायर	15		0.00	0.00	6,890.00	2,528.76	1,033.91	3,558.26	3,381.74	4,355.24
2	एयर कंडीशनर	15		0.00	0.00	552,432.00	217,591.02	82,883.86	300,461.02	252,027.16	3,14,590.84
3	भवन सम्पत्ति	15		0.00	0.00	43,450.00	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
4	मकड़ी बाँस	15		0.00	0.00	3,549.00	2,070.50	532.36	2,602.85	946.15	1,478.50
5	कैबल	60		27,500.00	0.00	45,167.30	30,590.88	273,761.99	357,261.87	1,11,925.13	1,48,176.12
6	कन्सुमर बिस्	60		0.00	0.00	127,300.00	31,190.06	46,403.96	127,300.00	0.00	46,403.96
7	इलेक्ट्रिक एल	15		0.00	0.00	26,773.60	23,657.71	1,776.84	25,434.35	1,336.65	3,115.29
8	रेलवेिंग मशीन	15		0.00	0.00	2,495.00	192.13	374.25	1,188.38	1,322.62	1,702.87
9	कमी वर	15		26,440.00	0.00	2,517,555.16	1,38,172.66	385,136.32	1,094,399.00	1,450,085.16	1,40,782.44
10	दवाखत	15		0.00	0.00	0.00	7,987.30	248.15	246.15	7,740.83	0.00
11	सुरक्षित लाकर	15		0.00	0.00	0.00	23,335.00	3,161.75	4,383.75	20,123.25	0.00
12	होल मशीन	15		0.00	0.00	0.00	0.00	349.52	349.52	1,025.48	0.00
	योग			88,837.00	0.00	3,831,218.18	3,165,848.73	795,345.24	1,959,294.97	1,861,923.19	3,598,631.43
	विक्रय वर्ष			491,783.00	0.00	3,732,581.15	945,405.20	258,844.53	1,163,948.73	2,568,631.43	2,315,882.92



31.03.07 को संपन्न विद्यती अवधि अनुपूर्वी व	जोड़े	विशेष विवरणों को आवंटित राशि	31.03.08 को संपन्न राशि वर्ष	31.03.08 को संपन्न राशि वर्ष
0.00		विशेष विवरणों को आवंटित राशि	0.00	
1,838.58		का) प्रोफेसर जी. एन. दीवान स्मारक इनाम पुरस्कार निधि : (सर्वोत्तम वैधानिक मेस एवं विषय एकदश के लिए)	1,155.78	
1,838.04		का) प्रोफेसर जी. एन. दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (अनुसंधान परियोजना के लिए)	20,121.08	
1,838.35		का) प्रोफेसर जी. एन. दीवान स्मारक स्त्री शिक्षा निधि : (विषय सीटी 8 के लिए)	9,485.44	
158.78		का) के. आर. शर्मा स्मारक छात्रवृत्ति (विषय सीटी 3 के लिए)	915.83	
375.32		का) एन. सी. शुक्ल स्मारक छात्रवृत्ति (विषय सीटी 3 के लिए)	2,245.32	
1,954.18		का) कानि नारायण स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (सर्वोत्तम अनुसंधान लेख के लिए)	11,282.18	
165.35		का) आर्यभट्ट स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)	921.85	
222.85		का) अरुण स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	1,300.27	
231.81		का) बाली स्त्री छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 6 के लिए)	1,407.12	
2,478.38		का) सतीश जीवित छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	15,037.96	
924.07		का) के. ए. रमेश स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	5,538.96	
382.18		का) के. सी. शर्मा स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	2,248.95	
308.03		का) यशवंत मुन्शी स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 2 के लिए)	1,836.70	
888.95		का) प्रोफेसर आर. एन. जोशी स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 7 के लिए)	2,325.04	
327.57		का) जे. आर. जोशी स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	1,917.55	
397.52		का) शेर एलर्न स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	2,341.59	
150.58		का) शेर एलर्न अनुसंधान निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	913.86	
810.39		का) के. एन. गोपाल स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)	2,420.12	
1,149.60		का) निराला स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)	6,975.37	
2,778.76		का) स्टेडर्ट लाइव निधि	16,860.57	
18,534.43		का) यूनिवर्सल निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)	119,887.52	
5,081.41		का) एन. सी. रमेश स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	30,832.22	
8,477.91		का) एन. सी. रमेश स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	51,441.01	
61,557.19		का) एन. सी. रमेश स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	535,887.83	
25,080.04		का) शेर एलर्न अनुसंधान निधि	260,470.98	
9,504.73		का) भारतीय जीवन शैली निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	57,677.37	
582.52		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	3,048.18	
3,250.73		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	19,724.37	
5,633.04		का) स्टेडर्ट लाइव निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)	34,209.83	
1,524.92		का) एन. सी. रमेश स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)	45,082.89	
548.87		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	3,330.36	
151.93		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	3.00	
1,195.65		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	6,834.75	
65.76		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	399.04	
145,597.99		का) विश्व शांति निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)	1,271,618.57	

योग





उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए आज प्राप्तान :

अनुसूची 8 (क)

उद्दिष्ट धर्मादा निधि	आज के 1%	वर्ष के दौरान परिकल्प	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.08 को
स्टेडर्स लाइफ, कर्नाटक :	408,706.68	34,229.63	0.00	525,916.61
विश्व शै (कर्नाटक) :	281,775.94	19,724.32	0.00	301,500.26
रेवीम शै (पुल्लकांतय आवासिता संपत्ति) :	99,848.11	6,975.37	0.00	106,823.48
स्टेडर्स लाइफ :	240,865.31	16,980.57	0.00	257,725.88
पुल्लकांतय आवासिता संपत्ति :	1,841,250.20	114,887.52	0.00	1,756,137.82
पुल्लकांतय आवासिता संपत्ति :	440,460.28	30,852.22	0.00	10,282.50
पुल्लकांतय आवासिता संपत्ति :	734,871.60	51,441.01	0.00	786,312.61
सेमीको अनुसंधान	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमायक इटिया फेडरेशन	7,885,109.05	535,857.63	0.00	8,191,966.68
जिरीए तथा अनुसंधान	3,721,015.99	250,470.58	4,589,083.90	8,550,568.77
भवन निधि निधि	15,303,703.46	1,471,259.24	4,589,083.90	20,403,646.91
योग			461,000.00	

अन्य उद्दिष्ट धर्मादा निधि(यों) के लिए आज प्राप्तान

अनुसूची 8 (ग)

अन्य उद्दिष्ट निधि	आज के 1%	वर्ष के दौरान परिकल्प	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.08 को
भारतीय जीवन बीमा	883,878.69	57,671.37	0.00	887,548.06
आइसीआईजीआई	652,612.83	45,682.88	0.00	698,295.51
जर्मन भारतीय राहत निधि	5,700.17	395.01	0.00	205,395.18
योग	1,492,191.49	103,753.26	200,000.00	1,785,942.75



## ग) अन्य निवेशों से व्याज/लाभ/भोग

6,885.00	वूटीआइ-यूएस 64	13,770.00
53,860.82	आइटीआईआइ बांड	0.00
144,000.00	आइटीआईआइ बांड	37,778.00
614,187.93	एचडीएफसी-एएसआइ	2,322,182.31
4,337.81	ऑद्य प्रवेश पावर फाइनेंस निगम लि.	11,150.00
43,761.00	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (जीईबी)	98,757.79
85,897.15	तेमिलनाडु पावर फाइनेंस निगम लि.	63,868.51
43,183.56	केरल पावर फाइनेंस निगम लि.	111,000.00
1,967.00	कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए आय कर वापसी	0.00
0.00	एचडीएफसी म्युचुअल फंड से लाभ/भोग	146,484.29
1,945,406.28	उपरोक्त व्याज	2,754,363.71
2,943,392.55		
3,752,643.89		
2,622,783.47		

योग रु.

1,130,180.42

31.03.07 को समाप्त पिछली अवधि 31.03.08 को समाप्त सालू वर्ष 31.03.08 को समाप्त सालू वर्ष

4,122,226.02

## अनुसूची ग

## शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क

1,800.00	क) परीक्षा शुल्क	8,902,713.93
4,417,977.37	ख) अध्ययन पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री शुल्क	14,007,885.45
12,270.00	ग) शैक्षणिक लायसेन्स/छात्र हस्त पुस्तिका की बिक्री	3,800.00
83,400.00	घ) छुट्टी शुल्क	123,000.00
477,500.00	ड) शैक्षणिक इंडिया मैगजीन आय	1,220,000.00

योग रु.

4,992,947.37

25,237,398.38

31.03.07 को समाप्त पिछली अवधि	जोरे	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची न	सदस्यों का अशदान		
306 375 00	1. दफिना शुल्क	359 740 36	
404 400 00	2. अतिरिक्त शुल्क	2,084 692 78	
58 515 00	3. अतिरिक्त शुल्क	237 364 00	
763,590.00			4,079,007.09
योग रु.			
31.03.07 को समाप्त पिछली अवधि	जोरे	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची थ	सेमीनार शुल्क		
132,000.00	1. इटिया फेलोशिप सेमीनार शुल्क	140 000 00	
55 630 00	2. एकात्मिक एवं शांतिपूर्ण जीवन, जोड़िएकी के योग क्लिक अफ के राकट से सेमीनार	0 00	
5,000	3. जीवन जोग के दौरान नुती पर सेमिनार शुल्क	506 200 00	
9 00	4. एलियर 2 महोत्सव प्रशिक्षण कार्यक्रम	282,000 00	
335 000 00	5. गाम्बेसिया गाम्बेसिया अफेयर शुल्क एकीकृत सामग्री	0 00	
968 400 00	6. कतरिनर अफेयरकी समुदाय की	243 800 00	
0 00	7. अफेयरकी समुदाय की	28 000 00	
0 00	8. एलियर, अफेयरकी पर मैडाल पर	153 000 00	
0 00	9. इलीयरी, सेमीनार	117 500 00	
9 00	10. सीआइआसी पर सेमीनार शुल्क	190 000 00	
1,489,030.00			1,850,000.00
योग रु.			
31.03.07 को समाप्त पिछली अवधि	जोरे	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.08 को समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची द	अन्य आय		
24,800.00	सदस्यों से प्राप्त आक प्रचार	65 676 00	
1 200 00	सदस्यों से प्राप्त	0 00	
5 00	अन्य आय	78 500 00	
50 000.00	अन्य आय	125 000 00	
79,500.00			453,254.11
योग रु.			

**अनुसूची "घ" : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा से संबंधित दिव्यनियां****क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

1. लेखांकन परम्परा :  
लेखे ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं।
2. ब्याज से आय : निवेशों पर ब्याज को गणना प्रोद्भवन आधार पर इस प्रकार के निवेशों को लागू दरों पर की जाती है। विशिष्ट निधियों के उद्दिष्ट निवेशों से आय संबंधित निधियों में जमा कर दी जाती है। उद्दिष्ट न किए गए निवेश से प्राप्त आय आय एवं व्यय खाते जमा कर दी जाती है।
3. निवेश :  
निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।
4. अचल परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास :  
अचल परिसंपत्तियां अपनी मूल्य लागत पर उल्लिखित की जाती हैं।  
वर्ष के लिए सीधी रेखा प्रणाली के अंतर्गत मूल्यहास की व्यवस्था की जाती है। पिछली अवधि की तुलना में मूल्यहास की दरें परिवर्तित की गई हैं और वे नीचे दिए गए अनुसार हैं:

<u>परिसंपत्ति की किस्म</u>	<u>चालू वर्ष के लिए मूल्यहास की दर</u>	<u>पिछले वर्ष के लिए मूल्यहास की दर</u>
वाटर प्यूरीफायर	15%	25%
एअर कंडीशनर	15%	25%
श्रव्य सम्मेलन प्रणाली	15%	20%
नकदी बाक्स	15%	10%
कंप्यूटर	60%	25%
कंप्यूटर प्रिंटर	60%	25%
ईपीबीएक्स प्रणाली	15%	20%
ऐन्सरिंग मशीन	15%	10%
फर्नीचर	15%	10%
दमकल	15%	कुछ नहीं
सुरक्षित लाकर	15%	कुछ नहीं
तौल मशीन	15%	कुछ नहीं

5. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के आधार पर स्टाफ उपदान देने का हकदार है और उपदान देयता तय करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित यथानुपात आधार पर प्रावधान किया गया है।
6. अध्ययन सामग्री का स्टाफ प्रकाशन, लेखन सामग्री इत्यादि को लेखों के अपने-अपने व्यय शीर्ष के अंतर्गत वर्ष में बड़े खाते डाल दिया जाता है।
7. निवेश आय का आबंटन निम्नलिखित रीति से किया गया है जिसे अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है तथा लेखापरीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है

क = निवेश का 01.04.2007 को अथ शेष (+) 01.04.2007 को अथ नकदी एवं बैंक शेष।

ख = निवेश का 31.03.2008 को इति शेष (+) 31.03.2008 को इति नकदी एवं बैंक शेष।

1 = वर्ष 2007-08 के दौरान निवेश आय (+) 31.03.08 को समाप्त वर्ष के लिए उपचित ब्याज।

i = सभी निधियों के लिए निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर।

$i = \frac{(2 \times \text{ग})}{(\text{क} + \text{ख}) - 1}$

क = 5,08,31,763.37

ख = 6,36,19,656.97

1 = 41,22,226.02

(क+ख) - 1 = 11,03,29,194.32

i = 7%

ध्यान दें: निधियों में निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर 7% है।

## ख) लेखों के संबंध में टिप्पणियां

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहबद्ध, पुनःक्रमबद्ध तथा पुन वर्गीकृत किया गया है। पिछली अवधि के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं क्योंकि चालू अवधि के लेखे 10.11.2006, जो भारतीय बीमांकिक संस्थान के निर्गमित किए जाने की तारीख है, से 31.03.2007 तक के हैं।
2. भारतीय बीमांकिक सोसाइटी सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और बंबई सार्वजनिक न्याय अधिनियम, 1950 दिनांक 09.11.2006 को भंग कर दिया गया तथा भारतीय बीमांकिक सोसाइटी की देयताएं 10.11.2006 को भारतीय बीमांकिक संस्थान को अंतरित कर दी गईं। बीमांकिक अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 27.08.2006 को मिली। केंद्र सरकार ने 10.11.06 को यह तारीख इसलिए निश्चित की क्योंकि उस दिन से वित्त मंत्रालय (अर्थिक कार्य विभाग) (बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग) का दिनांक 08.11.2006 की अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान लागू हुए।

3. 31.03.2008 को अनुसूची "ज" के अंतर्गत दर्शाई गई विविध देनदार राशि 3,76,934.25 रुपए है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2008-09 में 85000 रुपए अब तक प्राप्त हो चुके हैं।
4. चूंकि, कतिपय निधियों में अर्थात्, जीसीए [अनुसूची ख (v)] में विशेष महत्वपूर्ण पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार, भुगतान के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है, इसलिए उन विशिष्ट निधियों से खर्च किए गए अवशिष्ट खर्चे सामान्य निधि खाते [अनुसूची क (ख)] के नामे की गई है।
5. आइएआइ-एमएमआइसी (पहले एएसआइ-एमएमआइबी नाम से) पर आलोच्य वर्ष के दौरान 7,22,004.63 रुपए का ऑडिट ब्याज तुलनपत्र की "डक" अनुसूची के अंतर्गत आइएआइ-एमएमआइसी खाते में जमा की गई है।
6. आलोच्य अवधि के दौरान अनुबंधी हितलाभ कर देयता के लिए कोई प्रावधान लेखों में नहीं किया गया है।
7. लेखों के शेष की पुष्टि : 31.03.08 को लेखों में बैंक शेष-सहित सभी नामे एवं जमा शेषों के खातों की बहियों के अनुसार हैं और ये पुष्टि तथा खातों के समाधान के अधीन हैं।
8. पहले की भारतीय बीमांकिक सोसाइटी ने आय कर निदेशक (छूट) के कार्यालय में 30.03.2006 को लेखा वर्ष 2005-06 से लेखा वर्ष 2007-08 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) (vi) के अंतर्गत छूट की मंजूरी के लिए फार्म सं.56 डी में एक आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमांकिक संस्थान ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 क) के अंतर्गत छूट मांगी है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 को इस संबंध में आवश्यक कागजात 11.07.2007 को प्रस्तुत किए हैं। इसे देखते हुए, समीक्षाधीन अवधि में लेखों में आय-कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कृते खांडवाला एंड शाह

कृते भारतीय बीमांकिक संस्थान

सनदी लेखाकार

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
प्रेमल पी. गांधी	जी.एन.अगरवाल	के. एस. गोपालकृष्णन	हीरक बसु
भागीदार	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	मानद सचिव

सदस्यता सं.45462

स्थान : मुंबई

दिनांक : 04 अगस्त 2008

निर्देशक  
भारतीय बीमांकिक संस्थान  
110001

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA  
(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Chennai-600 034, the 30th May 2008

**3SCA(4)/1/2006-2007** In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date(s) mentioned against the names of the following members -

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
1	002076	MR. SUBRAMANYAM N S	31/03/2006
2	002347	MR. VENUGOPAL S	31/03/2006
3	002209	MR. VENKATARAMAN K	31/03/2006
4	005352	MR. SUNDARESAN P S	02/05/2006
5	013235	MR. BALASUBRAMANIAN S	31/03/2006
6	020491	MR. SIVASUBRAMANIAN S	27/03/2006
7	024857	MS. SITABAI V	02/05/2006

(Dr.) ASHOK HALDIA  
Secy.

**3SCA(4)/2/2006-2007** In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members -

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE	S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
1	000408	MR. DHARMASANKARA IYER R	03/06/2006	12	004307	MR. KURUVILLA SAMUEL	12/05/2006
2	000454	MR. NATARAJAN V	25/08/2006	13	004334	MR. RAMARAJAN R	22/01/2006
3	000700	MR. RAGHUPATHI T R	11/07/2006	14	004605	MR. DAMBAL MUDIYAPPA BASAVANNEPPA	23/06/2005
4	000978	MR. NARAYANASWAMIA	20/12/2005	15	004957	MR. THIRUVENGADASWAMI R	22/09/2006
5	001009	MR. VENKATARAMAN M	21/01/2007	16	005040	MR. ASHOK KUMBHAT	03/01/2007
6	001254	MR. KRISHNAN P S	25/11/2006	17	005651	MR. PAREKH R CHOTALAL	29/03/2006
7	002263	MR. YEGNA RAMANATHAN P	25/11/2005	18	006262	MR. ARAVAMUDHAN S	17/10/2006
8	003011	MR. TAOORE MRASINDRANATHI	12/06/2006	19	006838	MR. SETHURAMAN S	02/11/2006
9	003074	MR. PARCHASARADHI CHUNDURU	05/03/2006	20	006886	MR. SANKARANARAYANAN V	19/03/2006
10	003176	MR. NARASIMHARAO AYYAGARI	15/08/2006	21	006964	MR. RAGHUNATH S	02/12/2006
11	003508	MR. GANGADHARAM CHAVALI	11/06/2006	22	007306	MR. NARASIMHAN S L	24/07/2005



S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
23	007669	MR. PEETHAMBARAN P E	18/05/2006
24	007977	MR. GOPALAKRISHNAN RAMANATHAN	05/01/2007
25	007994	MR. PARTHASARATHY C R	21/02/2006
26	008149	MR. GANGADHARA MURTHY K C	18/05/2006
27	008161	MR. GANESAN V	16/10/2005
28	008534	MR. VIJAYAKUMAR V	03/11/2006
29	008634	MR. RAMANUJA IYENGAR TIRUVENGADA	13/08/2006
30	009785	MR. SURENDRA SHENOY R	24/12/2006
31	010487	MR. SHENOY GANESH K	21/04/2005
32	010579	MR. RAMAMURTHY S	30/09/2006
33	010696	MR. NAINAR S R M M	18/01/2006
34	011625	MR. RAMASWAMY AYLUR DEVARAJA	26/01/2007
35	012795	MR. SITARAMAN M	01/04/2006
36	012906	MR. MALLIKHARJUNA RAO CHAMARTHI	16/12/2005
37	014465	MR. VENKITACHALAMA	08/11/2006
38	015231	MR. BALAKRISHNAN S	20/11/2006
39	016815	MR. MATHIAS NOEL JOSEPH	06/11/2005
40	018126	MR. JAGADEESAN P V	31/01/2005
41	018297	MR. VINAYAK B M	15/04/2006
42	018298	MR. NANDA KUMAR C K	16/04/2006
43	018566	MR. RAMACHANDRA RAO KOLLI	11/08/2006

S.NO.	MRN	MEMBER NAME & ADDRESS	REMOVAL DATE
44	019867	MR. SIRAJUDEEN M S A	18/01/2006
45	020418	MR. MURUGESAPANDIAN P	29/11/2006
46	020600	MR. CHANDRASEKARAN K V	07/09/2003
47	020651	MR. PALANIAPPAN M	29/01/2006
48	021841	MR. KRISHNA RAO C H V	09/03/2006
49	022077	MR. ANANDAKRISHNAN A D	02/12/2006
50	023246	MR. KESHAVA SHANBOGUE K	15/05/2008
51	023910	MR. FERNANDEZ RONALD	05/03/2006
52	024655	MR. MADU KRISHNA REDDY	08/08/2006
53	025411	MR. JAYARAMAN V	14/12/2004
54	025880	MR. VENKATARAMANAN A R	16/12/2005
55	026469	MR. RAJESH P	29/11/2006
56	026850	MR. SESHADRI B R	18/11/2005
57	028345	MR. SATHYANAND PRASAD S	27/07/2006
58	202088	MR. RAMESH S	05/04/2006
59	202760	MR. MOORTHY R	24/02/2007
60	204514	MR. SHAJU K	29/04/2006
61	206939	MR. ROHAN PAUL	11/03/2006
62	209465	MR. NARASAPPANAVAR SUBASH RAMAPPA	02/08/2005
63	218293	MR. RAJARAM R	19/02/2006

(Dr.) ASHOK HALDIA  
Secy.

New Delhi-110 002, the 2nd September 2008

No. 1-CA(7)/122/2008—In partial modification of Notification No. 1-CA(7)/115/2008 dated 31st March, 2008 notifying setting up of a branch of Western India Regional Council at Pimpri-Chinchwad, it is hereby notified that the following towns/cities, besides Pimpri and Chinchwad, shall now fall under the jurisdiction of the said branch:-

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. Khadki        | 8. Talegaon      |
| 2. Pimpri MIDC   | 9. Kamshet       |
| 3. Bhosari       | 10. Rajgurunagar |
| 4. Chinchwadgaon | 11. Chakan       |
| 5. Akurdi/Nigadi | 12. Junnar       |
| 6. Dchu Road     | 13. Narayangaon  |
| 7. Lonavala      |                  |

T. KARTHIKEYAN  
Director & Acting Secy.

# MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 9th June 2008

**No. A-36011/4-08-Admn. III.** In pursuance of the recommendations of the Kengalim-Commission Report 2001 and decision taken in the 15<sup>th</sup> Conference of the Central and State Statistical Organisations(COCSO), it has been decided to constitute a Standing Committee on Infrastructure Statistics(SCINS) as under:

## 1. Composition of the Committee

i)	Director General, Central Statistical Organisation	Chairman
ii)	Additional Director General, NAD, CSO	Member
iii)	Representative Secretariat for Committee on Infrastructure Planning Commission	Member
iv)	Representative Department of Statistical Analysis & Computer Services, Reserve Bank of India	Member
v)	Representative Infrastructure Division, D/o Economic Affairs, M/o Finance	Member
vi)	Economic Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry & Commerce, New Delhi	Member
vii)	Representative M/o Coal	Member
viii)	Representative M/o Housing and Urban Poverty Alleviation	Member
ix)	Representative Railway Board, M/o Railways	
x)	Representative D/o Road Transport & Highways	Member
xi)	Representative D/o Shipping	Member
xii)	Representative M/o Civil Aviation	Member
xiii)	Representative D/o Telecommunications	Member
xiv)	Representative Ministry of Power	Member
xv)	Representative M/o Urban Development	Member
xvi)	Representative Ministry of Petroleum & Natural Gas	Member
xvii)	Representative M/o Rural Development	Member
xviii)	Representative M/o Water Resources	Member
xix)	Representative Ministry of New and Renewable Energy	Member
xx)	Representative Department of Information Technology	Member
xxi)	Representative D/o Posts	Member
xxii)	Representative Transport Research Wing, M/o Shipping Road Transport and Highways	Member
xxiii)	Additional Director General, PSD, CSO	Member Secretary

## 2. Terms of Reference of the Committee

- To standardise concepts, definitions and methodology for compilation of infrastructure statistics.
- To define the scope and coverage of Infrastructure statistics and suggest changes in the same from time to time.
- To suggest improvements in infrastructure statistics in view of international practices, recommendations made by other expert bodies and to satisfy the domestic requirements of planners and policy makers at different levels.

3. The Committee may co-opt any officer(s) or Expert(s) with experience in Industrial Statistics, as may be deemed necessary by it to help it to formulate its views and reports.
4. TA/DA of the official members shall be borne by their respective Ministries/ Departments/ Organisations. The non-official members would be entitled to TA/DA as per rules. The expenditure of the Committee would be borne by the Ministry of Statistics and Programme Implementation under the Head of Account 3454 (Major Head), 02.204 Central Statistical Organisation(Minor Head).
5. This issues with the concurrence of AS&FA vide Dy. No 266/B&F Dated 03.06.2008
6. This notification will come into force with immediate effect.

ARVIND KUMAR  
Joint Secy.

# INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

## SECOND REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED 31.03.2008

The Council has the pleasure to submit its 2nd report for the financial year ended 31st March, 2008 and activities for the period since last AGM on 08/09/2007.

### 1. Environment

The Institute of Actuaries of India has been established since late 2006 as a statutory professional body in the country for regulating and developing the profession of Actuaries and for matters connected therewith and incidental thereto. The Actuaries Act, 2006 now governs the actuarial profession in India.

The new Council was set started as per Section 42 of the erstwhile amended Election Rules recommended by the Government. As the rules were not in final form, initially the Executive Committee of the erstwhile ASI continues to discharge all the functions of the Council.

The insurance industry in India had a growth rate of 23.32% during 2007-08 after a spectacular growth of more than 100% during 2006-07. Two new companies – Future Generali and ICICI India entered in the life sector. The growth rate during 2007-2008 in Non-life has been 17.52%. Future Generali and The Central Spinning entered in non-life sector. The insurance sector will continue to grow as there is much to be tapped yet.

So far the health insurance industry has been taken by the financially upper section of society. IRDA took initiative and introduced Health Insurance Regulations which are aimed at providing insurance cover to the socially weaker section of society. The detailing of premium rates for various claims of General Insurance sector has increased the role of actuaries in Non-life also. The Health Insurance sector penetration is on the rise as not only both life and non-life companies are paying attention to it but also the government health insurers have entered into this field. The growth rate in health insurance premium exceeded 700% during 2007-08.

Very recently there has been a change in the political scene of the country. The left parties have withdrawn their support from the government but the government itself survived by getting majority on the floor of the House. It is now expected that the government may take forward the reforms by taking up the pending matters such as enhancing foreign participation and in insurance sector from 26% to 49% (pending of IRDA bill, amendments in Insurance Act, 1938, etc.). This will lead to higher growth of insurance sector in India.

With increasing demand, the profile of the profession needs to be raised to work in the public interest. It needs not only working on the issues that are already in the public domain but also on emerging issues and to prepare ourselves for them. This requires promotion of knowledge and research in all matters relevant to the actuarial science and its application.

### 2. Membership

The net membership of the Institute has gone up by 4.51% the analysis of which is given as under:

#### 2.1 Analysis

Class of Membership	As on 31.3.2002	As on 31.3.2003	As on 31.3.2004	As on 31.3.2005	As on 31.3.2006	As on 31.3.2007	As on 31.3.2008
Fellows	204	200	204	203	215	217	215
Affiliates	19	21	24	18	33	27	8
Associates	122	115	120	136	131	135	134
Students of act. (incl. Associates)	1494	1755	2615	3486	5512	5200	5516
Total	1839	2291	3163	3843	5996	6579	6865
Hon. Fellows	6	6	6	6	6	6	6
Grand Total	1845	2297	3169	3849	6002	6585	6871

It may be seen that the net membership has been only students only.

### 3 Committees / Advisory Groups and Council

#### 3.1 Election of office bearers

Consequent upon constitution of the Institute of Actuaries of India, the Central Government was required to notify "The Actuaries (Election to the Council), Rules, 2007" in terms of clause (a) of sub-section (2) of Section 55, read with sub-section (2) of Section 12 of the Actuaries Act, 2006. As the Rules were not notified till the end of year 2007-08, election to the Council was not conducted and as such the same Council serving as at 31st July 2007 continued as on date. The Council consist of members as under..

**Members of the Council serving as at 30.6.2008:**

Sr.No.	Name of the Member
1	G. N. Agarwal, President
2	K. S. Gopalakrishnan, Vice President
3	Heerak Basu, Hon. Secretary
4	G. C. Chaturvedi (nominee from the Central Government)
5	R. Kannan (nominee from the IRDA)
6	P. A. Balasubramanian
7	N. M. Govardhan
8	T. Bhargava
9	S. Madhusudhanan
10	K. K. Wadhwa
11	G. L. N. Sarma
12	K. Sriram

#### 3.2 Meetings

From the last AGM on 8th September 2007 till this AGM, the Council met 6 times in Mumbai on the following dates:

Sr.No.	Date
1.	08.09.2007
2.	30.11.2007
3.	28.01.2008
4.	15.03.2008
5.	21.06.2008
6.	02.08.2008

#### 3.3 Office Bearers

Following office bearers have continued to serve the Institute from 24.03.2007 onwards.

1. G. N. Agarwal	President
2. K. S. Gopalakrishnan	Vice President
3. Heerak Basu	Hon. Secretary

#### 3.4 Committees

##### 3.4.1 Education and Examination Committee

In terms of Section 21(1) of the Actuaries Act, 2006, the Education and Examination Committee is constituted as follows:

1. R. Kannan	Chairperson
2. G. L. N. Sarma	Member
3. R. Vaidyanathan	Member

During this year the Committee met formally once and discussed all related issues. In addition, the Chairperson had a number of consultations with the members and the Chairpersons of Advisory Group on Examination and Advisory Group on Education.

### 3.4.2 CPD / CoP Committee

In terms of Section 2(11) of the Act, the CPD/CoP Committee is constituted as follows:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. G. H. Arora          | Chairperson |
| 2. K. S. Gopalakrishnan | Member      |
| 3. R. Kishor            | Member      |

The Committee reports to the Council. It is responsible for taking decisions on the applications for fresh or renewal of Certificate of Practice. Presently CoPs are issued to Appointment Agencies to comply with their regulatory role in Life, General and Reinsurance areas. As per Section 9 of the Act the scope of CoPs is likely to increase as all members of Actuarial profession may be required to obtain CoPs before being entitled to practice.

### 3.4.3 Investment Committee

The Investment Committee comprises of the following:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. S. Gopalakrishnan | Chairperson |
| 2. Meenakshi Basu    | Member      |
| 3. S. Madhusudhanan  | Member      |

This Committee reports to the Council. Its responsibilities are:

- Recommend an investment policy to the Council
- Take investment decisions, including selling off investments, in accordance with the investment policy

Since its formation on 28th September 2007, the Committee met on 30th January 2008 and also actively participated in efforts to take investment decisions after due review of the cash flow projections of the Institute. During the period, the Committee recommended an Investment Policy to the Council which was adopted on 15th March 2008.

### 3.4.4 Audit Committee

The members of the Committee as on date are as under:

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. S. Kannan               | Chairman |
| 2. Meenakshi Basu          | Member   |
| 3. S. Madhusudhanan        | Member   |
| 4. Pradeep Kumar Manapalle | Member   |

The Committee reports to the Council. Its responsibilities are:

- Periodically review the financial statements of the Institute and submit to the Council with its observations
- Recommend appointment of internal and statutory auditors to the Council
- Submit minutes of every committee to the President

The committee held its first meeting on 23rd May 2008 and reviewed the financial statements of the Institute. Second meeting was held on 2nd August 2008 to review the final accounts for the year ended 31st March 2008.

## 3.5 Advisory Groups

### 3.5.1 Advisory Group on Education

The Advisory Group on Education was set up by the office order dated 29 September 2007 by the President with the following members:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. V. Rajagopalakrishnan    | Chairperson |
| 2. Anand Gupta              | Secretary   |
| 3. B. N. Rajagopalakrishnan | Member      |
| 4. V. Ravi Shankar          | Member      |
| 5. S. Madhusudhanan         | Member      |

The Group has initiated action on setting up sub committees to identify India specific material for inclusion in the SA level subjects. In addition, the Group attends to other items of work referred to it such as adequacy of coverage of syllabus in specific subjects to meet the requirements of IAA, possible exemptions from our examinations in respect of subjects passed in examinations conducted by other bodies such as the CAS and SOA. Other activities are planned for the future based on the roles and responsibilities set out as above.

### 3.5.2 Advisory Group on Examination

The Advisory Group on Examination was set up by the office order dated 29 September 2007 by the President with the following members:

1. S Madhusudhanan	Chairperson
2. R Srinivasa Rao	Secretary
3. J S Salunkhe	Member
4. Dheeraj Misra	Member
5. D Sai Srinivas	Member
6. A K Singh	Member
7. G L N Sorma	Member
8. Arpan Thanawala	Member

During the period the Advisory Group met on 19 07 2007, 14 08 2007, 20 10 2007, 15 12 2007, 05 01 2008, 08 02 2008 and 07 06 2008.

### 3.5.3 Advisory Group on Life Insurance

Membership of the Advisory Group on Life Insurance as on date is as under.

1. G N Agarwal	Chairperson
2. G L N Sarma	Secretary
3. K S Gopalakrishnan	Member
4. R Kannan	Member
5. A Venkatasubramanian	Member
6. V Rajagopalan	Member
7. Heerak Basu	Member
8. Nick Taket	Member
9. John Poole	Member
10. N M Govardhan	Member

#### Activities of Advisory Group.

- Current Issues in Life Assurance (CILA) was conducted on 2nd & 3rd August 2007 at National Insurance Academy (NIA), Pune. Over 55 participants attended the seminar.
- A seminar on Economic Capital was organized on 14th March 2008. Over 60 participants attended the same. Economic Capital – concept, international practice, case studies were discussed. Mr Mark Saunders, Mr John Poole, Mr Allen White, Dr K Sriram shared their thoughts on this important topic. Mr G N Agarwal, President, IAI addressed the gathering.
- Guidance Note 7 has been issued with the concurrence of IRDA. Modifications to Guidance Note 2 are proposed and being discussed by the group.

### 3.5.4 Advisory Group on General Insurance

The Advisory Group on General Insurance was constituted on the 28th of September 2007 and comprises of the following members.

#### Members of the Group:

1. N Lakshmanan	Chairperson
2. S Balakrishnan Iyer	Secretary
3. K Subrahmanyam	Member
4. Bireesh Giri	Member
5. P A Balasubramanian	Member
6. A R Prabhu	Member
7. V Govindan	Member
8. N K Parikh	Member

The first meeting of the group was held on the 1st week of December 2007 at the Institute of Actuaries of India office, Mumbai. The main areas of deliberations were two-fold, viz. framing for CPD programmes and drafting of the Guidance Note 21 (GN 21) on Appointed Actuary and General Insurance Business.

The group has unanimously agreed that a training programme needs to be organised in different classes of general insurance encompassing product features, risk factors, underwriting and reserving aspects etc. It was aimed at giving more detailed and in-depth knowledge to experienced actuaries, actuarial students and underwriters working in the non-life insurance industry so that the actuaries can have a comprehensive view of the working of different departments.

The GN 21 was finalized on 6th January 2008 and was sent to the ACPAS on 30th January 2008 for their further consideration.

The first Seminar on General Insurance for the year was organized on 5th-6th June 2008 and was a resounding success. The participants found it extremely useful.

### 3.5.5 Advisory Group on Pensions and Social Security

Members of the Advisory Group on Pensions and Social Security as on date is as under:

1. K. N. Suresh	Chairperson
2. G. K. Rajagangan	Secretary
3. Arjun Kumarwala	Member
4. K. K. Madhwa	Member
5. R. D. Gera	Member
6. R. Krishnaswamy	Member
7. J. K. Mohr	Member
8. Anuragdas Shrivastava	Member

During the period Pension and Social Security Committee is reconstituted as Advisory Board for Pension and Social Security (ABPSS) and had its first meeting on December 22, 2007 followed by second and third meetings on January 19, 2008 and February 28, 2008 respectively. The main focus of ABPSS during the last year was to continue with addressing issues related to AS 15(R) and the new issues that came into light with ASB Guidance in implementing AS 15 (R). ABPSS has finalized the new guidance note GN 26, actuarial reports under AS 15 (Revised, 2005) after taking into consideration of all points raised by honorable members and Institute of Chartered Accountants of India. The final copy of GN 26 is currently made available in the institute website. During the period the ABPSS has also drafted two other Guidance Notes one on Compensatory Absences, which is accepted by members of the board and under due process for approval, and the second one is on Provident Fund Interest Rate Guarantee and its treatment which is under review by members of the board. During the period the ABPSS also reviewed the existing Guidance Notes and implemented the following amendments regarding the same.

The Advisory Board on Pension and Social Security has organized a seminar for Chartered Accountants on 21st June and was well received by the Chartered Accountants and should result in strengthening the relation between the two professional bodies.

### 3.5.6 Advisory Group on Professional Affairs and Standards

The members of the Advisory Group on date are as under:

1. B. K. Srinivas	Chairperson
2. James Pajon	Secretary
3. K. M. Govardhan	Member
4. J. S. Sankhe	Member
5. M. K. Nair	Member
6. Peter Akers	Member
7. A. R. Khande	Member

During the period, the Advisory Group met twice, on 14.12.2007, 13.03.2008 and 19.06.2008 to deliberate on issues of relevance.

Two 'Fellowship Seminars' were conducted by the Committee during this period, on 11.12.07 and December 2007 and 19/20th of June 2008 which were respectively the 8th and the 9th IFS.

The activities undertaken by the Advisory Group in detail are as follows:

- A chair policy statement on the Role of the Actuary and the Auditors' has been prepared for further deliberation in the



- The content and quality of the 'India Fellowship Seminar' has been continuously reviewed.
- Changes to some existing GN's have been initiated and implemented. Other GNs will also be reviewed during the year.

### 3.5.7 Advisory Group on Administration

The members of the Advisory Group as on date are as under:-

1. J S Salunkhe	Chairperson
2. Bharat Venkataramani	Secretary
3. M Jayaraman	Member
4. R Srinivasa Rao	Member
5. S Madhusudhanan	Member
6. Pournima Gupte	Member
7. Heerak Basu	Member
8. K K Wadhwa	Member
9. T Bhargava	Member
10. G L N Sarma	Member

During the year the Advisory Group met on 12th May 2007, 4th August 2007 and 3rd November 2007.

Consequent upon the constitution of the Institute of Actuaries of India with effect from 10th November 2006, the Advisory Group examined the issue of revamping of IAI website on priority basis and made recommendations to develop the website on the following lines:

- Phase 1 : Make immediate consequential corrections and develop the site as provider of all relevant information
- Phase 2: Linking the site to membership database so that a member can see information pertaining to him or her
- Phase 3: Allowing members to do non-financial transactions (address change, CPD updating etc.); and
- Phase 4: Allowing members to do financial transactions (online subscriptions, exam fees etc.)

The Advisory Group examined the infrastructure needs of the IAI Administration for internal and external telephonic communication and made recommendations for installing suitable EPABX system.

The Advisory Group examined the progress of the project about setting up of Member Tracker System and the difficulties faced by the Administration in implementing the system in the context of changed requirements of the IAI. The Advisory Group recommended the development of new software which would comprehensively meet the needs of the Administration for providing adequate and prompt support to the members and to the management of IAI and advised identification of a suitable vendor for the purpose.

### 3.5.8 Advisory Group on Financial Risk Management

The members of the Advisory Group as on date are as under:-

1. K S Gopalakrishnan	Chairperson
2. Rajesh Dalmia	Secretary
3. M S V S Phanesh	Member
4. R Vaidyanathan	Member
5. R Kannan	Member
6. Hemamalini R	Member
7. K Srinam	Member

This group deals with and promotes actuarial applications into the management of financial risks, regulatory aspects of financial services industry and also deals with issues relating to conduct of Continuing Professional Development (CPD) programmes for members of IAI.

### 3.5.9 Advisory Group on Health Insurance

The members of the Advisory Group on Health Insurance are:

1. P A Balasubramanian	Chairperson
2. D Sai Srinivas	Secretary

3. Kalpana Pawar	Member
4. Mahesh Kataria	Member
5. A. Venkateswararaman	Member
6. Ramesh Krip	Member
7. K. Subramaniam	Member
8. T. Shargava	Member

#### Activities during the period

During the period the group met on 16th January 2008.

#### Material for subject SA1 – review and future action

#### Public awareness on Health Insurance – review and future action

#### Establishing relationship with General Insurance Council in the context of Health Insurance – review and future action

It was decided to take up the matter with Secretary General of General Insurance Council.

In fulfillment of the duties of the group, seminar on "Health Insurance & Core" was held on 17-18 January 2008 at NIA, Pune. It was attended by 146 participants from the insurance industry.

#### 3.5.10 Advisory Group on Actuary India

The Actuary India is the monthly magazine of Institute of Actuaries of India. It is medium of communication about various activities in actuarial profession for the members of the Institute. It gives an opportunity to share problems and experiences.

The Advisory Group on Actuary India has the following members:

1. Hemant Bhat	Chairperson
2. Sunil Sharma	Member
3. Sajjan Jambunathan	Member
4. Shripad Mankar	Member
5. Bharat Venkataraman	Member
6. Navin Dole	Member

The monthly issue contains articles from both members of the Institute as well as non-members. The magazine covers matters of topical interest to the profession as well as reports and announcements on various events organized by the Institute. Areas covered over the past year include developments in financial reporting, management of pensions and life insurance, risk management, mortality and tips for students.

The Actuary India is sent to all members of the Institute, various management institutes, private life and General Insurance companies, Actuarial committees, international actuarial bodies. The monthly issue of the magazine is also available on website.

#### 3.5.11 Students Affairs Group

The Student Affairs Group is constituted as follows:

##### Members of the Group

1. V. Govindar	Chairperson
2. G. Gopal	Member
3. R. Srinivas Rao	Member

The examination system has improved, judging by the few complaints received from candidates compared to previous years. The complaints relate to CT3, CT6 and CT 8 of November 2007 examination.

#### 4. Tenth Global Conference of Actuaries

Insurance Regulatory and Development Authority, Mr. David G. Hartman, President, International Actuarial Association, Mr. Oliver Rowlands, Head of Retirement, EMEA, UK, AON, Dr. Wolf Becke, CEO, Hannover Life Re Mr. G. N. Agarwal, President, IAI & Mr. K. S. Gopalanisharan, Vice President, IAI.

### 5. Library

IAI provides library services and has a good collection of books on actuarial and other related subjects.

The library is the access point to get material for further reading in the subject of interest. Library membership is increasing with increase in the membership of IAI. Till date library membership is around 1400.

#### Journals:

The library also houses the journals and magazines from various other actuarial institutes like The Actuary – Staple inn, The Actuary – SoA, Actuary Australia IRDA Journal, British Actuarial Journal, and Australian Actuarial Journal.

#### LIBSYS: Library Software

The process of Web-OPAC is in progress. This will help the members to browse the library book catalogue online. The subject wise list of library books is available on the website.

### 6. Analysis of financial statements 2007-2008

Consequent upon constitution of the Institute of Actuaries of India by an Act of Parliament during the year 2006-2007 two separate Balance Sheets were prepared as under:-

1. For Actuarial Society of India from 1st April 2006 to 9th November 2006
2. For Institute of Actuaries of India from 10th November 2006 to 31st March 2007

During 2007-2008 only one Balance Sheet has been prepared for Institute of Actuaries of India. For the purpose of making analysis of the financial position of the institute, the figures of both (A.S.I. and IAI) for the year 2006-2007 have been taken into account together and compared with the data pertaining to the year 2007-2008.

#### 1. Balance Sheet

- a) Trust Fund and corpus has increased by about 50% over 2006-2007. This was due to healthy surplus generated in 2007-2008.
- b) Current Liabilities have gone up by about 39%. This is on account of higher examination fees of May 2008 by about Rs 11 lacs received during 2007-2008 shown as liability and increase in outstanding bills for payment by about Rs 10 lacs.
- c) investments have gone up by about 43%. This includes the investment of earmarked funds which shows an increase of 42%. Further the increase can be attributed to increase in surplus 35.33%
- d) The amount of Loan and advances has gone up by 59%. The increase is on account of Accrued Interest but not due on investments (increase 59%) and Tax Deducted at source which is recoverable from Income Tax authorities (increase 81%).

#### 2. Income and Expenditure

- a) Surplus generated during 2007-08 was higher by Rs. 33.19 lacs (35.33%) over previous year.
- b) The total income grew by about 38%. The revenue generated through educational service and examination fees accounts for 73% of the total revenue. Members' contribution is about 12% of the total revenue. Interest income on investment is about 8% which is higher by 52% over previous year.
- c) Total expenses (other than Audit fee and Depreciation) grew by about 11% over previous year which are in line with the increase in the activities of the institute.

### 7. ORDINARY GENERAL MEETING (OGM)

No OGM was held during this period.

### 8. Acknowledgement

The staff at the IAI continued their hard work and demonstrated commitment of high degree in coping with ever increasing work load.

Various committees and Advisory Groups have contributed throughout the year and brought activities to very high standards of professionalism.

Examiners and Markers have contributed to the conduct of examination which has enhanced IAI's standing as a credible professional examining body.

## FINANCIAL STATEMENTS

**KHANDWALA & SHAH**  
Chartered Accountants

G-3, 8th floor, "Everest"  
156, Tarteo Road, Tarteo  
Mumbai - 400 034

## Report of the Auditors relating to Accounts to the Council of Institute of Actuaries of India

## INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

- 1) We have audited the attached Balance Sheet of **Institute of Actuaries of India** as at 31st March, 2008 together with Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2) We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 3) We report that:
  - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit.
  - (b) In our opinion, accounts are maintained in conformity with the requirements of The Actuaries Act, 2006.
  - (c) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
  - (d) In our opinion, the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account comply with the Accounting Standards.
  - (e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
    - (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of Institute as at 31st March, 2008.
    - (ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

PLACE: MUMBAI  
DATE: 04 AUG 2008

For and on behalf of  
**KHANDWALA & SHAH**,  
Chartered Accountants,

  
(PREMAL P. GANDHI)  
Partner  
Membership No.45462

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA  
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2008.

As at 31.03.07	FUNDS & LIABILITIES	Sch.	As at 31.03.08	As at 31.03.07	PROPERTY & ASSETS	Sch.	As at 31.03.08
25,262,931.29	CAPITAL AND RESERVES	"A"	37,961,970.25	2,568,631.43	FIXED ASSETS	"J"	1,861,923.19
1,380,100.97	PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS	"B"	3,494,108.03	49,330,806.00	INVESTMENTS	"F"	70,773,351.00
15,303,703.46	EARMARKED ENDOWMENT FUND	"C"	20,483,046.51		<u>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</u>		
1,482,189.49	OTHER EARMARKED FUNDS	"D"	1,785,942.75	1,603,953.37	A) CASH & BANK BALANCES	"G"	1,765,514.97
5,894,912.52	CURRENT LIABILITIES	"E"	8,172,265.00	354,016.25	B) SUNDRY DEBTORS	"H"	376,934.25
8,456,585.69	IAI - MORTALITY & MORBIDITY INVESTIGATION CENTRE (IMMIC)	"Ea"	9,126,089.32	3,923,016.37	C) LOANS & ADVANCES	"I"	6,245,698.45
57,780,423.42	Total Rs.		81,023,421.86	57,780,423.42	Total Rs.		81,023,421.86

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "S"  
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For KHANDWALA & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

*P. P. Gandhi*

Pramal P. Gandhi  
PARTNER  
Membership No. 45462

*K. S. Gopalakrishnan*

G. N. Agarwal  
PRESIDENT  
K. S. Gopalakrishnan  
VICE PRESIDENT

*Heerak Basu*

Heerak Basu  
HON. SECRETARY

PLACE : MUMBAI  
DATE : 04 AUG. 2008

**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2008**

Period Ended	EXPENDITURE	Sch	Period Ended	INCOME	Sch	Period Ended
31 03 2007			31 03 2008			31 03 2008
6,936,783.70	EXPENSES OF INSTITUTE	"R"	20,910,993.83	INTEREST ON INVESTMENT	"T"	1,22,226.02
	<b>AUDIT FEES</b>			IN SAVINGS BANK ACCOUNT		
29,060.00	Internal Audit Fees		67,414.00	ON ACCOUNT WITH BANKS & PUBLIC CORP		
16,854.00	Statutory Audit Fees		22,472.00	Loss TRANSFERRED TO SP. SPECIFIC FUNDS	"T"	1,22,16,19.57
258,344.53	ON PRECEDENCE	"A"	775,345.24			2,850,606.45
1,04,969.34	BALANCE CARRIED FORWARD		12,714,038.96	FINANCIAL SERVICES & EXCHANGE	"C"	25,257,199.38
8,289,739.80	Total Rs.		34,510,267.03	SECURITIES COMMISSION	"S"	8,175,367.19
378,561.26	PRIOR PERIOD ITEMS	"M"	0.00	SEALING FEES	"S"	66,000.00
671,136.28	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		12,714,038.96	OTHER INCOME	"R"	463,204.11
1,049,697.54	FOR THE PERIOD TRANSFERRED TO GEN. FUND					34,510,267.03
	Total Rs.		12,714,038.96	Total Rs.		12,714,038.96

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "5"  
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For KHANDWALA & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

Premal P. Gandhi  
PARTNER  
Membership No. 45462

G. N. Agarwal  
PRESIDENT

K. S. Gopalakrishnan  
VICE PRESIDENT

Heerak Bosu  
HON. SECRETARY

PLACE  
DATE

Mumbai  
04 AUG. 2008

**SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31.03.2008**

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE A</b>	<b><u>CAPITAL AND RESERVES</u></b>		
	a) Capital		
	Capital donated by :		
325,000.00	i) Chairman Executive Committee of General Insurance Council	325,000.00	
500,000.00	ii) General Insurance Corporation of India	500,000.00	
151,270.00	iii) Other Funds	151,270.00	
<b>976,270.00</b>	Balance as at 31.03.2007 $\leftarrow$ 31st Mar. 2008 $\rightarrow$	<b>976,270.00</b>	
	b) General Reserves :		
23,669,912.12	Balance as at 09.11.2006 $\leftarrow$ 1st April 2007 $\rightarrow$	24,286,661.29	
671,136.28	Add : Trfd from Income and Expenditure Account	12,714,038.96	
1,137.11	Less : President's award for paper of Special Significance at GCA (Sch. 8(v))	15,000.00	
53,250.00	Less : Prof. G.S. Diwan Memorial / Prize / Awards Fund (Sch. 8(a))	0.00	
0.00	Less : The Actuary Magazine Fund (Sch. K (b))	0.00	
<b>24,286,661.29</b>	Balance as at 31.03.2007 $\leftarrow$ 31st Mar. 2008 $\rightarrow$	<b>36,985,700.25</b>	
<b>25,262,931.29</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>37,961,970.25</b>

**SCHEDULE A(a)(iii) Details of Funds (Others)**

Month & Year	Name	Amount
12-Aug-1995	M/s Thanawala Consultancy Service	50,000.00
13-Dec-1995	Mr. D. Basu	1,000.00
27-Dec-1995	Mr. M.C. Chakravarty	10,000.00
17-Jan-1996	Mr. S.V. Ramaswamy	1,000.00
23-Jan-1996	Mr. M.S. Venkataraman	2,000.00
1-Feb-1996	Mr. S.P. Subhedar	2,500.00
23-Feb-1996	Mr. D.K. Lodaya	1,000.00
26-Feb-1996	Mr. J.L. Smith	2,500.00
19-Mar-1996	Mr. H.L. Bhutia	10,000.00
19-Mar-1996	Mr. B.P. Gupta	6,550.00
8-May-1996	Mr. K.V.V. Sastry	1,000.00
16-May-1996	Ms. Archana Tripathy	300.00
21-May-1996	Mr. S. N. Narayanan	3,320.00
8-Jul-1996	Mr. D.K. Pandit	10,000.00
21-Aug-1996	Mr. M. Veerabadrian	1,000.00
5-Dec-1996	Mr. V.L. Sapre	5,000.00
13-Dec-1996	Mr. B.P. Gupta (L.M.)	10,500.00
31-Mar-1996	Mr. A.R. Prabhu	1,000.00
3-Apr-1996	Mr. D. Basu	100.00
15-May-1996	Mr. T. S. Swaminathan	25,000.00
25-Jun-1996	M/s Thanawala Consultancy Service	7,500.00
	<b>Total Rs.</b>	<b>151,270.00</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE B</b>			
	<b><u>PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS :</u></b>		
	a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Award Fund : (For Best Actuarial Paper & Subject SA2)		
0.00	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	0.00	
0.00	Add : Received during year	100,000.00	
53,250.00	Add : Amount mfg from General Reserve	0.00	
53,250.00	Less : Prize paid during the year	35,000.00	
0.00	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		65,000.00
	b) Prof. (Late) G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Education Fund (Donated by R.M. Mehta)		
157,529.44	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	159,368.00	
1,838.56	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	1,115.76	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
159,368.00	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		170,523.76
	c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund : (For Research Project)		
142,918.51	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	144,586.55	
1,668.04	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	10,72.06	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
144,586.55	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		154,707.61
	d) Prof. Diwan Birth Centenary Education Fund (For Subject CTB)		
135,919.95	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	135,506.30	
1,586.30	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	9,485.44	
0.00	Add : Received during year	0.00	
2,000.00	Less : Prize paid during year	2,000.00	
135,506.33	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		142,991.77
	e) K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund : (For Subject CT1)		
13,425.62	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	13,083.30	
156.70	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	915.82	
500.00	Less : Prize paid during the year	1,280.00	
13,083.32	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		12,749.15
	f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund : (For Subject CT3)		
32,200.00	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	33,075.98	
375.82	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	2,245.32	
500.00	Less : Prize paid during the year	000.00	
32,075.98	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		33,321.30
484,620.18	Balance C/fd.....		579,293.59



As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
484,620.18	Balance B/fd .....		579,293.59
	<b>g) Shanti Trust Endowment Fund :</b> (For best Research/Article by Member)		
167,433.85	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	160,888.01	
1,954.16	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	11,262.16	
8,500.00	Less : Prize paid during the year	8,500.00	
<b>160,888.01</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. 2008 ->		<b>163,650.17</b>
	<b>h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund :</b> (For Subject CT5)		
14,253.01	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	13,169.36	
166.35	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	921.86	
1,250.00	Less : Prize paid during the year	2,500.00	
<b>13,169.36</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. 2008 ->		<b>11,591.22</b>
	<b>i) Chhajju Ram Scholarship Endowment Fund :</b> (For Subject CT2)		
19,102.37	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	18,575.32	
222.95	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	1,300.27	
750.00	Less : Prize paid during the year	2,250.00	
<b>18,575.32</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. 2008 ->		<b>17,625.59</b>
	<b>j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund :</b> (For Subject CT6)		
19,869.82	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	20,101.73	
231.91	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	1,407.12	
0.00	Less : Prize paid during the year	1,500.00	
<b>20,101.73</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. 2008 ->		<b>20,008.85</b>
	<b>k) Canada Life Scholarship Endowment Fund :</b> (For Successful Associates and Fellows)		
212,349.68	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	214,828.06	
2,478.38	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	15,037.96	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>214,828.06</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. -> 2008		<b>229,866.02</b>
	<b>l) K.A. Pandit Memorial Prize Fund : (For Subject ST4)</b>		
79,175.39	Balance as at 09.11.2006 <- 1st April 2007 ->	79,099.46	
924.07	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	5,536.96	
1,000.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>79,099.46</b>	Balance as on 31.03.2007 <- 31st Mar. 2008 ->		<b>82,636.42</b>
<b>991,282.12</b>	Balance C/fd .....		<b>1,104,671.86</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
991,282.12	Balance B/fd.....		1,104,671.86
	<b>m) K P Sarma Prize Fund : (For Subject CT4)</b>		
32,745.89	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 →	32,127.87	
382.15	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	2,249.95	
1,000.00	Less : Prize paid during the year	3,000.00	
<b>32,127.87</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>32,376.82</b>
	<b>n) Jonardhan Pundlik Narorkar Prize Fund : (For Sub. ST2)</b>		
25,964.16	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 +	26,267.13	
303.07	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	1,638.70	
0.00	Add : Received during year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>26,267.13</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>26,105.83</b>
	<b>o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund : (For Subject CT7)</b>		
32,325.93	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 →	32,214.86	
368.95	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	2,325.04	
500.00	Less : Prize paid during the year	3,500.00	
<b>33,214.88</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>34,039.92</b>
	<b>p) Peter Akers Research Fund : (For Life Insurance)</b>		
12,901.57	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 →	13,052.25	
50.58	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	913.66	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>13,052.25</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>13,965.91</b>
	<b>q) Peter Akers Prize Fund (For Subject ST3)</b>		
33,069.48	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 →	33,457.00	
397.62	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	3,341.99	
1,000.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>33,457.00</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>33,798.99</b>
	<b>r) J.R. Joshi Prize Fund : (For Subject CA3)</b>		
28,066.06	Balance as at 09.11.2006 + 1st April 2007 →	27,393.63	
327.57	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (a))	1,917.55	
1,000.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>27,393.63</b>	Balance as on 31.03.2007 + 31st Mar. 2008 →		<b>27,311.18</b>
<b>1,156,794.88</b>	<b>Balance C/fd.....</b>		<b>1,272,270.51</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
1,156,794.88	Balance B/fd.....		1,272,270.51
	<b>s) K.S. Gopalakrishnan &amp; Liyaquat Khan Prize Fund :</b> (For Subject ST5)		
35,162.77	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	34,573.16	
410.39	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	2,420.12	
1,000.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>34,573.16</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>34,993.28</b>
	<b>t) Late Meena Sidhwani Act. Edu. Fund</b> (For Awards to New FASIs)		
49,910.12	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	43,516.64	
582.52	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	3,046.16	
6,976.00	Less : Prize paid during the year	9,100.00	
<b>43,516.64</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>37,462.80</b>
	<b>u) Late R.M. Mehta Memorial Fund</b>		
47,027.94	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	47,576.81	
548.87	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	3,330.38	
0.00	Amount received during the year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>47,576.81</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>50,907.19</b>
	<b>v) Presidents Award for paper of Special Significance at GCA</b>		
13,702.96	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	0.00	
159.93	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	0.00	
1,137.11	Add : Trfd from General Reserve	15,000.00	
15,000.00	Less : Prize paid during the year	15,000.00	
<b>0.00</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>0.00</b>
	<b>w) Late A S Gupta Prize Fund (For best Girl Student each year)</b>		
102,443.84	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	97,639.49	
1,195.65	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	6,834.76	
6,000.00	Less : Prize paid during the year	6,000.00	
<b>97,639.49</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>98,474.25</b>
	<b>x) Principal PNB Life Insurance Co. Ltd</b>		
0.00	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (I) (a))	0.00	
0.00	Add : Amount received during the year	2,000,000.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>0.00</b>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<b>2,000,000.00</b>
<b>1,380,100.97</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>3,494,108.03</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE C</b>			
	<b><u>EARMARKED ENDOWMENT FUNDS :</u></b>		
	a) Swiss Re		
98,448.11	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	99,648.11	
1,149.60	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	6,975.37	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Library Books	0.00	
<b>99,648.11</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>106,623.48</b>
	b) Swiss Re (Furniture)		
278,525.7	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	281,775.94	
3,250.73	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	19,724.32	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
<b>281,775.94</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>301,500.26</b>
	c) Standard Life		
238,086.56	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	240,865.31	
2,778.77	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	6,860.57	
0.00	Less : Purchase of Library Books	0.00	
<b>240,865.31</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>257,725.88</b>
	d) Standard Life (Furniture)		
488,708.94	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	488,708.98	
5,636.54	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	34,209.63	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
<b>488,708.98</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>522,918.61</b>
	e) Prudential Corporation Asia Ltd		
1,622,210.87	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	1,641,250.30	
18,914.10	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	114,857.52	
0.00	Less : Paid for Excellence Performance & paying three or more subjects at a time	0.00	
<b>1,641,250.30</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>1,756,137.82</b>
	f) HDFC		
435,378.87	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	440,460.28	
5,087.41	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	30,832.22	
0.00	Less : Paid for Publication of Annual Directory	461,000.00	
<b>440,460.28</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>10,292.50</b>
	g) CPD / Research		
726,393.54	Balance as at 09.11.2006 - 1st April 2007 ->	734,871.50	
8,477.91	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	51,441.01	
0.00	Less : Interest transferred to AS to meet expenses	0.00	
<b>734,871.50</b>	Balance as on 31.03.2007 - 31st Mar. 2008 ->		<b>786,312.51</b>
<b>3,927,580.42</b>	<b>Balance C/fd.....</b>		<b>3,741,511.06</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
3,927,580.42	Balance B/fd.....		3,741,511.06
	<b>h) GCA &amp; Research Fund :</b>		
5,274,266.44	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	7,655,109.05	
3,865,475.70	Add: Surplus of ← 8th & 9th GCA and Surplus of → 10th GCA	0.00	
61,557.19	Add: Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	535,857.63	
0.00	Add: Amount recd. from Munich Re ag. reimb. of dinner exps. at 6th GCA	0.00	
1,546,190.28	Less: 40% of Surplus of 9th GCA & Research Fund transf. to Building Fund (Sch. C(i))	0.00	
<u>7,655,109.05</u>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<u>8,190,966.68</u>
	<b>i) Building Fund :</b>		
2,149,733.67	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	3,721,013.99	
1,546,190.28	Add : Transferred from GCA & Research Fund (40% of 9th GCA) [sch C(i)]	0.00	
0.00	Add : Surplus of GCA & Research Fund for the year [sch.C(i)]	4,569,083.80	
25,090.04	Add : interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (b))	260,470.98	
<u>3,721,013.99</u>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<u>8,550,568.77</u>
<u>15,303,703.46</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>20,483,046.51</u>

**SCHEDULE D****OTHER FARMARKED FUNDS :**

	<b>a) LIC of India</b>		
814,371.96	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	823,876.69	
9,504.73	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (c))	57,671.37	
0.00	Less : Transferred to income and expenditure account	0.00	
<u>823,876.69</u>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<u>881,548.06</u>
	<b>b) ICICI :</b>		
645,083.71	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	652,612.63	
7,528.92	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (c))	45,682.88	
0.00	Less : Interest transferred to ASI to meet expenses	0.00	
<u>652,612.63</u>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<u>698,295.51</u>
	<b>c) Employees Relief Funds :</b>		
5,634.41	Balance as at 09.11.2006 ← 1st April 2007 →	5,700.17	
0.00	Add : Amount received during the year	200,000.00	
65.76	Add : Interest allocated during Period/Year (Schedule (L) (c))	399.01	
0.00	Less : Amount paid during the year	0.00	
<u>5,700.17</u>	Balance as on 31.03.2007 ← 31st Mar. 2008 →		<u>206,099.18</u>
<u>1,482,189.49</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>1,785,942.75</u>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE E</b>	<b><u>CURRENT LIABILITIES</u></b>		
	<b><u>Sundry Creditors</u></b>		
5,274.00	Debt Enterprises	0.00	
1,582.00	Finance Officer P.O. Ltd.	0.00	
<b>6,861.00</b>			<b>0.00</b>
	<b><u>Other Liability</u></b>		
308,009.25	Deposit Refundable (AS - Members)	15,11,75.00	
22,944.00	Gratuity Liability - Actuals - Value	55,314.00	
3,650.00	Recd. in advance - Contribution to PPF (staff)	5,130.00	
<b>4,846,031.84</b>	<b>Amount Recd. In Advance</b>	<b>5,969,075.00</b>	
50,000.00	ROA - RE (Advertisement Income)	25,000.00	
285,168.00	Month RE (Advertisement Income)	3,00,000.00	
0.00	Admission fees (2008-09)	43,200.00	
4,439,092.84	Exam. fees May 2007 / Nov 2008	55,38,200.00	
71,771.00	Total Exam Fees May 2007 / Nov 2008	62,675.00	
225,475.75	Subscription Fees recd. In advance for FY. 2007-08	0.00	
8,705.00	Subscription Fees recd. In advance for FY. 2008-09	128,045.00	
150.00	Subscription Fees recd. In advance for FY. 2009-10	10,495.00	
0.00	Subscription Fees recd. In advance for FY. 2010-11	450.00	
241.50	TDS on Contractors Payable	0,445.00	
0.00	TDS on Professional charges Payable	12,094.00	
471,824.68	Outstanding Liabilities	1,305,911.00	
<b>5,888,051.52</b>			<b>8,172,265.00</b>
<b>5,894,912.52</b>		<b>Total Rs.</b>	<b>8,172,265.00</b>

**SCHEDULE E(a) IAI-MMIC Fund (former Named MMIB)- List of Contributors**

Name	DATE	Amount
Insurance Regulatory & Development Authority	6-Oct-03	500,000.00
HDFO Standard Life Insurance Co. Ltd.	6-Oct-03	500,000.00
Aviva Life Insurance Co. Ltd.	6-Oct-03	500,000.00
Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	6-Oct-03	500,000.00
AMP Sanmar Assurance Co. Ltd.	7-Oct-03	500,000.00
ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	8-Oct-03	500,000.00
Allianz Bupa Life Insurance Co. Ltd.	8-Oct-03	500,000.00
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2-Oct-03	500,000.00
Tata AIG Life Insurance Co. Ltd.	4-Oct-03	500,000.00
OM Kang Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Met Life India Insurance Co. Ltd.	21-Nov-03	500,000.00
UC of India	22-Nov-03	500,000.00
<b>Total Rs</b>		<b>6,500,000.00</b>

**a) MMIC (formerly Named as MMIB)**

8,230,753.48	Balance as at 09.11.2006 (31 April 2007)	8,176,285.69
226,492.71	Add - Interest allocated during FY 2007-08	727,604.53
0.00	Add - Contribution by A	1.00
0.00	Less - Expenses incurred by IAI	6,401.00
<b>8,456,585.69</b>	<b>Balance as at 31.03.2007 (31 Mar 2008)</b>	<b>9,126,089.37</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE F</b>	<b>INVESTMENTS</b>		
	a) US 64 Bonds		
54,000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (540 Bonds)	54,000.00	
70,000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (700 Bonds)	70,000.00	
80,000.00	6.75% Tax Free US 64 Bonds (800 Bonds)	80,000.00	
	b) In Bonds of		
2,000,000.00	IDBI Flexi Bonds	2,000,000.00	
1,000,000.00	Gujarat Electricity Board Bonds	700,000.00	
1,000,000.00	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	1,000,000.00	
	c) In Fixed Deposit with		
23,200,000.00	HDFC Ltd.	29,294,360.00	
3,016,000.00	Bank of India, Nariman Point	13,500,000.00	
1,065,426.00	UTI Bank, Fort, Mumbai	1,133,391.00	
1,395,380.00	Corporation Bank, Mumbai	200,000.00	
50,000.00	Central Bank of India - Churchgate	50,000.00	
100,000.00	Andhra Pradesh Power Finance	100,000.00	
1,000,000.00	Tamilnadu Power Finance Corporation Ltd.	1,292,500.00	
8,310,000.00	HDFC Ltd. (IAL - MMIC)	8,799,100.00	
2,000,000.00	Kotak Mahindra Bank	1,500,000.00	
0.00	DBS BANK Ltd	6,000,000.00	
	d) In Mutual Funds		
22,000,000.00	Franklin Templeton	2,000,000.00	
1,000,000.00	HDFC Mutual Fund	1,000,000.00	
2,000,000.00	ICICI Prudential	2,000,000.00	
<b>49,330,806.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>70,773,351.00</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE G</b>	<b>CASH AND BANK BALANCES</b>		
	a) Cash Balances		
9,794.63	i) Cash on Hand	25,307.08	
5,800.00	ii) Cash (General)	5,900.00	
	b) Bank Balances in Saving Account with		
34,481.58	i) Bank of India, Nariman Point (A/c No. 4553)	54,365.95	
(25,983.99)	ii) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 57127)	9,301.01	
1,427,919.11	iii) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 56426)	18,707.18	
0.00	iv) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2970)	1,795,947.96	
0.00	v) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2971)		
	Bank Overdraft	(317,820.25)	
48,946.04	vi) Central Bank of India, Churchgate (A/c No. 9080)	53,697.04	
102,996.00	vii) Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 8725 )		
	(IAL - MMIC)	120,109.00	
<b>1,603,953.37</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>1,765,514.97</b>

As at 31.03.07	Particulars	As at 31.03.08	As at 31.03.08
<b>SCHEDULE H</b>	<b><u>SUNDRY DEBTORS</u></b>		
10,000.00	a) United India Insurance Co. Ltd.	0.00	
20,000.00	b) First Apex	0.00	
50,000.00	c) Handover Re.	50,000.00	
30,000.00	d) D. W. Simpson	30,000.00	
57,413.25	e) Watson Wyatt India Pvt. Ltd.	24,641.25	
49,240.00	f) Darwin Rhodes	300.00	
30,000.00	g) GAAPs	30,000.00	
59,663.00	h) EMB Consultancy	59,663.00	
30,000.00	i) General Cologne Re.	0.00	
17,500.00	k) Reliance Life	0.00	
0.00	l) ACT ED Co.	75,000.00	
0.00	m) Deloitte	30,000.00	
0.00	n) Futura General India	60,000.00	
0.00	o) HONOR	17,500.00	
0.00	p) ICICI Prudential Life	20,000.00	
0.00	q) Mercor	30,000.00	
<u>354,016.25</u>			<u>376,934.25</u>
<u>354,016.25</u>	<b>Total Rs</b>		<u>376,934.25</u>
<b>SCHEDULE I</b>	<b><u>LOANS &amp; ADVANCES</u></b>		
	<b>a) LOANS AND ADVANCES</b>		
677,357.19	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Banks)	1,471,769.49	
1,945,406.29	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Public Corporation)	2,754,363.71	
794,339.75	Tax deducted at Source Recoverable (ASI - Office)	436,498.05	
	Assessment Year 2001-2002 (Rs. 5207/-)		
	Assessment Year 2002-2003 (Rs. 8212/-)		
	Assessment Year 2004-2005 (Rs. 106918/-)		
	Assessment Year 2005-2006 (Rs. 117064)		
	Assessment Year 2006-2007 (Rs. 127439.20)		
	Assessment Year 2007-2008 (Rs. 388806.55)		
	Assessment Year 2008-2009 (Rs. 642158.30)		
	Tax deducted at Source Recoverable (Delhi Chapter)		
	Assessment Year 2001-2002 (Rs. 8830/-)		
	Assessment Year 2002-2003 (Rs. 7301/-)		
	Assessment Year 2005-2006 (Rs. 2456274)		
13,544.00	Telephone Deposit	9,560.00	
1,000.00	Electricity Deposit	6,600.00	
10,000.00	Audio Conference	10,000.00	
386,307.45	Prepaid Expenses	589,407.20	
	<b>b) OTHER ADVANCES</b>		
79,000.00	Staff Loan	7,500.00	
500.00	Amount receivable from BMC		
	(Security Deposit of Hotel Booking)	0.00	
15,861.75	Amount receivable from Watson Wyatt	0.00	
<u>3,923,016.37</u>	<b>Total Rs</b>		<u>6,245,698.45</u>



## SCHEDULE "J" : FIXED ASSETS

SR NO	PARTICULARS	RATE OF DEPRE %	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			AS AT 01.04.07	ADDITIONS DURING THE YEAR	SALE/ ADJUST- MENT	TOTAL AS ON 31.03.2008	UP TO 01.04.07	FOR THE YEAR	UP TO 31.03.08	AS AT 31.03.08	AS AT 31.03.07	
1	WATER PURIFIER	15	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00	2,524.76	1,033.50	3,558.26	3,131.74	4,165.24	
2	AIR CONDITIONER	15	552,492.00	0.00	0.00	552,492.00	217,591.02	82,873.80	300,464.82	252,027.18	334,900.98	
3	AUDIO CONFRENCING SYSTEM	15	43,450.00	0.00	0.00	43,450.00	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	
4	CASH BOX	15	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00	2,070.50	532.35	2,602.85	946.15	1,478.50	
5	COMPUTER	60	451,677.00	27,500.00	0.00	479,177.00	83,500.88	773,750.99	357,251.87	121,925.13	368,176.12	
6	COMPUTER PRINTER	60	127,300.00	0.00	0.00	127,300.00	81,190.05	46,109.95	127,300.00	0.00	46,109.95	
7	EPBAY SYSTEM	15	26,773.00	0.00	0.00	26,773.00	23,657.71	1,776.64	25,434.35	1,336.65	3,115.29	
8	ANSWERING MACHINE	15	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00	797.13	374.25	1,166.38	1,328.62	1,702.87	
9	FURNITURE	15	2,517,955.16	26,440.00	0.00	2,544,395.16	709,172.68	385,136.37	1,094,309.00	1,450,086.16	1,808,782.44	
10	FIRE EXTINGUISHER	15	0.00	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00	246.17	246.17	7,740.83	0.00	
11	SAFE LOCKER	15	0.00	23,325.00	0.00	23,325.00	0.00	3,161.75	3,161.75	20,173.25	0.00	
12	WEIGHTS MACHINE	15	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	349.52	349.52	3,025.48	0.00	
	TOTAL		3,732,581.16	86,437.00	0.00	3,821,218.16	1,163,949.73	795,365.24	1,959,294.97	1,861,923.19	2,540,631.43	
	Previous Year		3,248,798.16	491,783.00	0.00	3,732,581.16	905,105.20	238,848.53	1,163,949.73	2,568,431.43	2,335,492.92	

**SCHEDULES TO INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2008**

Previous Period Ended 31.03.07	Particulars	Current Year Ended 31.03.08	Current Year Ended 31.03.08
<b>SCHEDULE K</b>	<b>EXPENSES OF THE INSTITUTE</b>		
1,448,759.71	a) Meeting Expenses	1,303,539.27	
896,206.50	b) Salaries (including Bonus/Ex-gratis/ Gratuity/Leave encashment)	2,086,326.60	
243,417.00	c) Printing and Stationery	918,882.00	
150,833.11	d) Postage, Courier & Telephone Charges	660,270.14	
3,754.50	e) Conveyance	4,958.00	
0.00	f) Expenses for conducting Examination	41,09,986.15	
1,538,721.91	g) Actuals Education Service - Study Material	2,871,463.61	
370,378.81	h) Seminar Expenses	2,21,5058.20	
38,986.00	i) Repairs & Maintenance	19,1499.00	
14,429.00	j) Bank Charges	185,448.57	
746,106.00	kl) Printing of Actuals & History	0.00	
5,645.40	l) Fire Insurance Premium	14,357.00	
11,236.00	m) Professional Charges	166,613.00	
21,064.00	n) Travelling Expenses for C. Mem/Committee Members	0.00	
190,930.71	o) Contribution paid to Charity Commissioner	1,206.48	
5,645.00	p) Office & General Expenses	81,230.40	
0.00	q) Subscription Fees (N.A.)	15,000.00	
0.00	r) Subscription Fees (AA)	76,003.00	
0.00	s) Sub-Membership Exp (O.A.)	76,353.60	
60,530.37	t) Staff Welfare	99,238.15	
0.00	u) Election Expenses	2,650.00	
1,121.00	v) Difference in Foreign Exchange	55.70	
510,331.50	w) Office Rent	2,001,221.50	
139,065.00	x) Electricity Charges	563,157.00	
2,548.00	y) Advertising Expenses	53,986.00	
503,603.18	z) Actuals India Magazine Expenses	1,615,091.20	
77,060.00	aa) Legal Fees	68,250.00	
624.00	ab) Admission Expenses	0.00	
0.00	ac) Library books & Periodical	1,075.00	
0.00	ad) Write Off	68,909.61	
3,682.75	ae) Insurance Charges	30,779.00	
594.60	af) Subscription Expenses	43,584.60	
<b>6,936,283.73</b>	<b>Total Rs</b>		<b>20,910,994.83</b>

Previous Period Ended 31.03.07	Particulars	Current Year Ended 31.03.08	Current Year Ended 31.03.08
<b>SCHEDULE I</b>	<b>INTEREST ALLOCATED TO SPECIFIC FUNDS</b>		
0.00	a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Awards Fund (For Best Actuarial Paper & Subject SA2)	0.00	
1,838.56	b) Prof.(Late) G.S.Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Edu.Fund (Donated by R.M. Mahta)	11,155.76	
1,668.04	c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund (For Research Project)	10,121.06	
1,586.35	d) Prof. G.S.Diwan Birth Cenetary Education Fund (For Subject CT8)	9,485.44	
156.70	e) K.R.Talpada Memorial Scholarship Endowment Fund (For Subject CT1)	915.83	
375.82	f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund (For Subject CT3)	2,245.32	
1,954.16	g) Shanti Trust Endowment Fund (For Best Research / Article by Member)	11,262.16	
166.35	h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund (For Subject CT5)	921.86	
222.95	i) Chhajra Ram Scholarship Endowment Fund (For Subject CT2)	1,300.27	
231.91	j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund (For Subject CT6)	1,407.12	
2,478.38	k) Canada Life Scholarship Endowment Fund (For Successful Associates & Fellows)	15,037.96	
924.07	l) K.A. Pandit Prize Fund (For Subject ST4)	5,536.96	
382.18	m) K.P. Sarma Prize Fund (For Subject CT4)	2,248.95	
303.03	n) Janardhan Pundlik Nerulkar Prize Fund (For Subject ST2)	1,838.70	
388.95	o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund (For Subject CT7)	2,325.04	
327.57	p) J.R. Joshi Prize Fund (For Subject CA3)	1,917.55	
397.52	q) Peter Aker Prize Fund (For Subject ST3)	2,341.99	
150.58	r) Peter Aker Research Prize Fund (For Life Insurance)	913.66	
410.39	s) K.S. Gopalkrishnan & Lyaquat Khan Prize Fund (For Subject ST5)	2,420.12	
1,149.60	t) Swiss Re (Library Infrastructure)	6,975.37	
2,778.76	u) Standard Life Fund	16,860.57	
18,934.43	v) Prudential Corporation Asia Ltd Fund (Coaching Classes & Examiners Seminar)	114,887.52	
5,081.41	w) HOFI (Actuarial Directory)	30,832.22	
8,477.91	x) CPD / Research Fund	51,441.01	
61,557.19	y) GCA & Research Fund	535,857.63	
25,090.04	z) Building Fund	260,470.98	
9,504.73	aa) LIC of India (Promotion & Prizes)	57,671.37	
582.52	ab) Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	3,046.16	
3,250.73	ac) Swiss Re (Furniture)	19,724.32	
5,638.04	ad) Standard Life (Furniture)	34,209.63	
7,528.92	ae) ICICI	45,682.88	
548.87	af) Late R.M. Mahta Memorial Fund	3,330.38	
159.93	ag) Presidents Award for paper of Special significance at GCA	0.00	
1,195.65	ah) Late A S Gupta Prize Fund	6,834.76	
65.76	ai) Employees Relief Fund	399.01	
<b>165,507.99</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>1,271,619.57</b>

**INTEREST PROVISION FOR PRIZES AND SCHOLARSHIP FUND(S) :**  
**SCHEDULE L (a)**

Prizes and Scholarship Funds	As on 01.04.07	Interest @ 7%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.08
Late Meera Gehvra Anuradha Education Fund	43,916.64	3,046.76	0.00	9,100.00	37,462.80
Late K.M. Mehta Memorial Fund	47,576.81	3,330.38	0.00	0.00	50,907.19
Penal Akar's Research Fund for Life Insurance	13,052.25	913.66	0.00	0.00	13,965.91
Peter Akar's Prize Fund	33,457.00	2,341.99	0.00	2,000.00	33,798.99
Principal PNB Life Insurance Co. Ltd	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
President's Award for Paper of Special Significance of GCA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Prof. G.S. Divan Birth Centenary Education Fund	135,506.33	9,485.44	0.00	2,000.00	42,991.77
Prof. G.S. Divan Prize Memorial/Prize/Award Fund	0.00	0.00	1,00,000.00	35,000.00	65,000.00
Prof. G.S. Divan Memorial Scholarship Endowment	144,586.55	10,121.06	0.00	0.00	154,707.61
K.R. Jaleel Memorial Scholarship Endowment	13,083.32	915.83	0.00	1,250.00	12,748.15
H.V. Krishnamurthy Prize Fund	32,075.98	2,245.32	0.00	1,000.00	33,321.30
Sriam. Trust Endowment Fund	160,888.01	11,262.16	0.00	8,500.00	63,650.17
Annamam Scholarship Endowment	13,169.36	921.86	0.00	2,500.00	11,591.22
Chhaju Ram Scholarship Endowment	18,575.32	1,300.27	0.00	2,250.00	17,625.59
Parvatidevi Scholarship Endowment	20,101.73	1,407.12	0.00	1,500.00	20,008.85
Canada Life Scholarship Fund	214,828.06	15,037.96	0.00	0.00	229,866.02
K.A. Pandit Memorial Prize Fund	79,099.46	5,536.96	0.00	2,000.00	82,636.42
K.P. Sarma Prize Fund	32,127.87	2,248.95	0.00	2,000.00	32,376.82
Sanandhya Prasad Memorial Prize Fund	26,267.13	1,838.70	0.00	2,000.00	26,105.93
Prof. K.M. Joshi Prize Fund	33,214.88	2,325.34	0.00	1,500.00	34,039.92
J.R. Joshi Prize Fund	27,393.63	1,917.55	0.00	2,000.00	27,311.15
Late G.S. Divan - 100th Birth Anniversary Memorial	159,368.00	11,100.76	0.00	0.00	170,523.76
K.S. Gopalkrishnan & Lyaquat Khan Prize Fund	34,573.16	2,420.12	0.00	2,000.00	34,993.28
Late A.S. Gupta Prize Fund	97,639.49	6,834.76	0.00	6,000.00	98,474.25
<b>Total</b>	<b>1,380,100.98</b>	<b>96,607.07</b>	<b>2,115,000.00</b>	<b>97,600.00</b>	<b>3,494,108.03</b>

**INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :**  
**SCHEDULE L(b)**

Earmarked Endowment Fund	As on 01.04.07	Interest @ 7%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.08
Standard Life (Furniture)	488,708.98	34,209.63	0.00	0.00	522,918.61
Swiss Re (Furniture)	281,775.94	19,724.32	0.00	0.00	301,500.26
Swiss Re (Library Infrastructure)	99,648.11	6,975.37	0.00	0.00	106,623.48
Standard Life	240,865.31	16,860.57	0.00	0.00	257,725.88
Prudential Corporation Asia Ltd.	1,641,250.30	114,887.52	0.00	0.00	1,756,137.82
HDFC	440,460.28	30,832.22	0.00	461,000.00	10,292.50
CPD / Research	734,871.50	51,441.01	0.00	0.00	786,312.51
The Actuary India Magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCA and Research	7,655,109.05	535,857.63	0.00	0.00	8,190,966.68
Building Fund	3,721,013.99	260,470.98	4,569,083.80	0.00	8,550,568.77
<b>Total</b>	<b>15,303,703.46</b>	<b>1,071,259.24</b>	<b>4,569,083.80</b>	<b>461,000.00</b>	<b>20,483,046.51</b>

**INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :**  
**SCHEDULE L(c)**

Other Earmarked Fund	As on 01.04.07	Interest @ 7%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.08
LIC of India	823,876.69	57,671.37	0.00	0.00	881,548.06
ICICI	652,612.63	45,682.88	0.00	0.00	698,295.51
Employees Relief Fund	5,700.17	399.01	200,000.00	0.00	206,099.18
<b>Total</b>	<b>1,482,189.49</b>	<b>103,753.26</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,785,942.75</b>

Previous Period Ended 31.03.07	Particulars	Current Year Ended 31.03.08	Current Year Ended 31.03.08
<b>SCHEDULE M</b>	<b><u>PRIOR PERIOD ITEMS</u></b>		
378,561.26	2% Contribution to Charity Commissioner on Gross Annual Income chargeable to contributions for F.Y. 2001-02 to F.Y.2004-05		0.00
378,561.26	Total Rs.		0.00
<b>SCHEDULE N</b>	<b><u>INVESTMENT INCOME</u></b>		
	<b>A) INTEREST ON SAVINGS BANK ACCOUNTS RECEIVED</b>		
29,884.00	Bank of India - D.N. Road - 56426	21,081.00	
3,327.00	Bank of India - D.N. Road - 57127	1,853.00	
917.00	CBI - Churchgate - 9090	1,751.00	
0.00	Bank of India - D.N. Road - 2970	17,681.00	
0.00	Bank of India - D.N. Road - 2971	1,701.00	
7,957.00	Bank of India - N.R. - 4553	3,012.00	
41,985.00			47,079.00
	<b>B) INTEREST OF F.D. WITH BANKS RECEIVED</b>		
20,518.94	Bank of India	1,007,314.42	
38,282.06	Corporation Bank	35,474.67	
1,016.00	Central Bank of India (Churchgate)	3,000.00	
30,372.13	UTI Bank (R.M. Road - Fort)	79,928.63	
0.00	Kotak Mahindra Bank	144,458.40	
677,357.19	Accrued Interest	1,421,769.49	
767,566.34			2,691,945.61
	<b>C) INTEREST/DIVIDEND FROM OTHER INVESTMENTS</b>		
6,885.00	UTI - US\$4	3,770.00	
53,663.92	CIC Bonds	0.00	
144,000.00	DBI Bonds	37,778.00	
614,187.93	HDFC - AS1	2,322,182.31	
4,337.81	Andhra Pradesh Power Finance Corporation Ltd.	1,150.00	
43,767.00	Gujarat Electricity Board (GEB)	98,757.79	
85,897.16	Tamil Nadu Power Finance Corporation Ltd.	63,866.51	
43,183.56	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	111,000.00	
1,867.00	Income Tax Refund For A.Y. 2004-05	0.00	
0.00	Div from HDFC Mutual Fund	146,464.29	
1,945,106.78	Accrued Interest	2,754,363.71	
2,943,392.55			5,559,334.61
3,752,943.89			8,298,359.22
2,622,763.47	LESS: Accrued interest and div. for the period/year		4,176,133.20
1,130,180.42	Total Rs.		4,122,226.02

Previous Period Ended 31.03.07	Particulars	Current Year Ended 31.03.08	Current Year Ended 31.03.08
<b>SCHEDULE O</b>	<b><u>EDUCATIONAL SERVICES &amp; EXAMINATION FEES</u></b>		
1,800.00	a) Examination Fees	9,902,713.93	
4,417,977.37	b) Study Course and Tuition Material Fees	14,007,885.45	
12,270.00	c) Sale of Actuarial Directory / Student Hand Book	3,800.00	
83,400.00	d) Exemption Fees	123,000.00	
477,500.00	e) Actuary India Magazine Income	1,220,000.00	
<b>4,992,947.37</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>25,257,399.38</b>
<b>SCHEDULE P</b>	<b><u>MEMBERS CONTRIBUTION</u></b>		
306,375.00	i) Admission Fees	959,750.36	
404,400.00	ii) Subscription Fees	2,881,892.73	
52,815.00	iii) Penalty / Late Fees	237,364.00	
<b>763,590.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>4,079,007.09</b>
<b>SCHEDULE Q</b>	<b><u>SEMINARS FEES</u></b>		
130,000.00	i) India Fellowship Seminar Fees	190,000.00	
55,630.00	ii) Seminar on Actuarial Mgt. of Health & General Insurance (GIB)	0.00	
0.00	iii) Seminar Fees on CILA	156,000.00	
0.00	iv) CA2 Modelling Training Programme	282,000.00	
335,000.00	v) *Seminar on Stochastic Modelling Workshop Fees	0.00	
968,400.00	vi) BAM Fees	743,500.00	
0.00	vii) Actuarial Practice Session	28,000.00	
0.00	viii) Health Insurance Seminar Fees	153,000.00	
0.00	ix) Seminar on Economic Capital in Life Insurance Industry in India	117,500.00	
0.00	x) *Seminar Fees on CIRB	190,000.00	
<b>1,489,030.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>1,860,000.00</b>
<b>SCHEDULE R</b>	<b><u>OTHER INCOME</u></b>		
28,300.00	Postal charges received from Members	63,676.00	
1,200.00	Sale of Scrap	0.00	
0.00	Sundry Balance Written Back	74,578.11	
50,000.00	COP Fees (Renewal & New Issuance)	325,000.00	
<b>79,500.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>463,254.11</b>

**Schedule (5): Significant Accounting Policies and Notes to Accounts****A) Significant Accounting Policies**

1. **Accounting Recognition**  
The accounts are drawn up on historical cost basis.
2. **Income from Interest**: Interest on investments is accounted for on accrual basis at the rates applicable to such investments. Income from earmarked investments or specific funds is credited to the respective funds. The incomes from investment not earmarked are credited to Income and Expenditure Accounts.
3. **Investments**  
Investments are stored at cost.
4. **Fixed Assets and Depreciation**  
Fixed Assets are stated at their original cost.  
Depreciation is provided under straight line method for the year. The rates of depreciation are changed as compared to previous periods and are as stated below:

Type of Asset	Rate of Depreciation For the current year	Rate of Depreciation For the Previous Period
Water Purifier	15%	25%
Air Conditioner	15%	25%
Audio Conferencing System	15%	20%
Cash Box	15%	10%
Computer	60%	25%
Computer Printer	60%	25%
EPBAX System	15%	20%
Answering Machine	15%	10%
Furniture	15%	10%
Fire Extinguisher	15%	Nil
Safe Locker	15%	Nil
Washing Machine	15%	Nil

5. Staff is entitled to receive gratuity based on the Payment of Gratuity Act, 1972 and Provision is made on prorata basis based on Actuarial valuation for determining the Gratuity liability.
6. Stock of Store Materials, Publications, Stationery etc are written off in the year of purchase under respective expenses head of accounts.
7. Allocation of Investment Income has been done in the following manner as carried by the President and called upon by the members:

A	Opening Balance as on 01.04.2007 of Investment (+) Opening Cash and Bank Balances as on 01.04.2007
B	Closing Balance as on 31.03.2008 of Investment (-) Closing Cash and Bank Balances as on 31.03.2008
C	Investment Income during the year 2007-08 (+) Accrued Interest for year ended 31.03.08
D	Interest rate for allocation of Investment Income to all funds
E	$(2 \times C) / [(A + B) - D]$
F	5,08,31,767.37
G	6,36,19,654.97
H	41,27,225.00
I = (F + G) - H	1,03,29,194.37
J	7%

NOTE: Interest rate for allocation of investment income to funds is 7%.




**B) NOTES TO ACCOUNTS**

1. Previous period's figures have been regrouped, rearranged & reclassified wherever necessary. The previous period's figures are not comparable with that of current year as the previous period's accounts are from 10.11.2006, the date of incorporation of Institute of Actuaries of India till 31.03.2007.
2. Actuarial Society of India registered under the Societies Registration Act, 1860 and the Bombay Public Trust Act, 1950 was dissolved on 09.11.2006 and all the Assets and Liabilities of ASI were transferred to Institute of Actuaries of India as on 10.11.2006. The Actuaries Act, 2006 received the assent of President on 27.08.2006. The Central Government appointed 10.11.2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Banking and Insurance Division) Notification dated 08.11.2006.
3. Sundry Debtors shown under Schedule 'H' outstanding as on 31.03.2008 is Rs. 3,76,934.25. Out of this an amount of Rs. 85,000/- since been received in F.Y. 2008-09.
4. Since, the certain funds namely, President's award for paper of special significance of GCA [Schedule B(v)] have insufficient balance to make payment, the residuary expenses incurred from that specific funds are debited to General Reserve Fund account [Schedule A(b)].
5. Interest allocated during the year of Rs. 7,22,004.63 on IAI-MMIC (former name ASI-MMIB) is credited to IAI-MMIC account under schedule 'Ea' of the Balance sheet.
6. No provision for fringe Benefit Tax liability has been provided in the accounts during the period.
7. Balance confirmation of accounts: All Debit and Credit balances including bank balances in the accounts as on 31.03.08 are as per books of accounts and subject to receipt of confirmation and reconciliation.
8. The erstwhile Actuarial Society of India has filed an application in Form No 56D for grant of exemption u/s 10(23C) (iv) of Income Tax Act, 1961 for A.Y. 2005-06 to A.Y. 2007-08 on 30.03.2006 in the office of Director of Income-Tax (Exemption). Further, Institute of Actuaries of India had sought for exemption u/s 10(23A) of Income Tax Act, 1961 and filed the necessary Papers in this regard on 11.07.2007 to the Central Board of Direct Taxes, Govt. of India, North Block, New Delhi - 110001. In view of this, no Provision of Income Tax is made in the accounts during the period under review.

As per our Report of Even Date

For KHANDWALA & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA




Premal P. Gandhi  
PARTNER


Membership No. 45462



G. N. Agarwal  
PRESIDENT



K.S. Gopalakrishnan  
VICE PRESIDENT



Heerak Basu  
HON. SECRETARY

PLACE : MUMBAI  
DATE : 04 AUG 2008